



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4]
No. 4]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2006/माघ 5, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2006/MAGHA 5, 1927

भारत परिसीमन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2006

आ.अ. 4(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा बनाए गए निम्नलिखित आदेश इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं :—

आदेश सं० 16

यतः, परिसीमन संशोधन अधिनियम, 2003 (2004 का 3) द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 8 तथा 4 के अनुसरण में भारत के राजपत्र और राजस्थान राज्य के राजपत्र के दिनांक 8 अगस्त, 2005 के असाधारण अंक में प्रकाशित, अपने दिनांक 8 अगस्त 2005 के आदेश सं० 12, द्वारा परिसीमन आयोग ने निर्धारित किया है कि (i) राजस्थान राज्य में लोक सभा के लिए आवंटित किये जाने वाले कुल स्थानों की संख्या पच्चीस (25) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए चार (4) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और तीन (3) स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाएंगे तथा (ii) राज्य की विधान सभा के लिए नियत किए जाने वाले कुल स्थानों की संख्या दो सौ (200) होगी जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए चौतीस (34) स्थान आरक्षित किये जाएंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए पच्चीस (25) स्थान आरक्षित किये जाएंगे; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसरण में परिसीमन आयोग ने राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए कार्यवाही के साथ राज्य के सह-सदस्यों के साथ अपने आप को सम्बद्ध किया; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग ने सह सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों के साथ अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया जिन्होंने 2001 की जनगणना के सम्बद्ध आकड़ों के आधार पर राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भारत सरकार के राजपत्र और राजस्थान राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में 8 अगस्त, 2005 को प्रकाशित करने तथा उक्त प्रस्तावों से संबंधित आपत्तियों और सुझावों को 23 अगस्त, 2005 तक आमंत्रित करने की इच्छा प्रकट की; और

यतः, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग के उपर्युक्त वर्णित आदेश सं० 12 और सह-सदस्यों के असम्मत प्रस्तावों सहित परिसीमन आयोग के उक्त सन्दर्भित प्रारूप प्रस्ताव 8 अगस्त, 2005 को स्थानीय समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे; और रेडियो, टेलिविजन और जन संचार के अन्य माध्यमों द्वारा और ज्यादा प्रचार किया गया; और

उस अधिनियम की धारा 9 की उक्त उपधारा (2) के अनुसरण में आयोग ने 8 अगस्त, 2005 को एक सार्वजनिक सूचना भी जारी की जिसमें सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक बैठकों के स्थान और तारीखें विनिर्दिष्ट की; और

यतः, उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आयोग ने, 21 और 22 सितम्बर, 2005 को जोधपुर में; 23 सितम्बर, 2005 को उदयपुर में और 24 सितम्बर, 2005 को जयपुर में सार्वजनिक बैठकें कराई और जनता के सदस्यों को सुना और आयोग को पहले ही भेजे गए लिखित अभ्यावेदनों के साथ-साथ मौखिक प्रस्तुतीकरण यदि कोई हो, करने का पूर्ण अवसर उन्हें प्रदान किया; और

यतः, संविधान के सुसंगत प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम के प्रकाश में, उक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में आयोग ने ऊपर लिखित आम बैठकों में दिये गये तथा/अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त सभी आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया है ।

अतः अब, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा (2) की उप धारा (9) के साथ पठित धारा 9 की उप धारा (2) के खण्ड (घ) के अनुसरण में परिसीमन आयोग एतद्वारा निम्न रूप से निर्धारित करता है :-

1. राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें राजस्थान राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'क' में दर्शाए अनुसार होगा ।
2. लोक सभा के निर्वाचनों के उद्देश्य से प्रादेशिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें राजस्थान राज्य को बांटा जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार सारणी 'ख' में दर्शाये अनुसार होगा ।
3. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र का अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।
4. सारणी 'क' या 'ख' में दर्शाये गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है कोष्ठक तथा अक्षरों "(अ0ज0जा0)" द्वारा चिन्हित किया गया है ।

तालिका—क
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका विस्तार

| क्रम संख्या एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार |
|---|---|
| 1. जिला गंगानगर | |
| 1. सादुलशहर | 1. तहसील सादुलशहर 2. तहसील गंगानगर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त मिर्जेवाला (II) भू.अ.नि. वृत्त हिन्दुमल कोट (III) भू.अ.नि. वृत्त शिवपुर (IV) भू.अ.नि. वृत्त राम नगर नगर परिषद गंगानगर में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर (V) भू.अ.नि. वृत्त चूनावढ़ (VI) भू.अ.नि. वृत्त गंगानगर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल चक महाराज का |

| | |
|--------------------------|---|
| 2. गंगानगर | 1. तहसील गंगानगर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत गंगानगर, नगर परिषद गंगानगर को सम्मिलित करते हुए तथा पटवार मंडल चक महाराज का को छोड़कर (II) भू.अ.नि. वृत बुर्जवाली (III) भू.अ.नि. वृत नेतेवाला |
| 3. करणपुर | 1. तहसील करणपुर 2. तहसील पदमपुर |
| 4. सूरतगढ़ | 1. तहसील सूरतगढ़ 2. तहसील विजयनगर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत जैतसर |
| 5. रायसिंहनगर (अ.जा.) | 1. तहसील रायसिंहनगर 2. तहसील विजयनगर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत विजयनगर, नगर पालिका बोर्ड, श्री विजयनगर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत कुंपली (III) भू.अ.नि. वृत 40जी.बी. (IV) भू.अ.नि. वृत 8एस.टी.बी. (V) भू.अ.नि. वृत 12 जी.बी. 3. तहसील अनूपगढ़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत सलेमपुरा (II) भू.अ.नि. वृत बांडा कॉलोनी |
| 6. अनूपगढ़ (अ.जा.) | 1. तहसील घड़साना 2. तहसील अनूपगढ़ भू.अ.नि. वृत सलेमपुरा एवं भू.अ.नि. वृत बांडा कॉलोनी को छोड़कर |
| 2. जिला हनुमानगढ़ | |
| 7. संगरिया | 1. तहसील संगरिया 2. तहसील टिब्बी |
| 8. हनुमानगढ़ | 1. तहसील हनुमानगढ़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत हनुमानगढ़ नगर पालिका बोर्ड, हनुमानगढ़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत रोड़ावाली (III) भू.अ.नि. वृत पक्कासारनान (IV) भू.अ.नि. वृत फतेहगढ़ (V) भू.अ.नि. वृत लखवाली (VI) भू.अ.नि. वृत नोरगढ़सर |
| 9. पीलीबंगा (अ.जा.) | 1. तहसील पीलीबंगा 2. तहसील रावतसर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत रावतसर नगर पालिका बोर्ड, रावतसर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत खोडा (III) भू.अ.नि. वृत गंधेली 3. तहसील हनुमानगढ़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत डबलीराठान |
| 10. नोहर | 1. तहसील नोहर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत नोहर, नगर पालिका बोर्ड, नोहर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत देईदास (III) भू.अ.नि. वृत गोरखाना (IV) भू.अ.नि. वृत फेफाना (V) भू.अ.नि. वृत मेघाना (VI) भू.अ.नि. वृत जबरारसर 2. तहसील रावतसर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत बरमसर (II) भू.अ.नि. वृत पल्लू |
| 11. भादरा | 1. तहसील भादरा 2. तहसील नोहर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत रामगढ़ |
| 3. जिला बीकानेर | |
| 12. खाजूवाला (अ.जा.) | 1. तहसील खाजूवाला 2. तहसीला पूगल 3. तहसील छत्तरगढ़ 4. तहसील बीकानेर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत कानासर (II) भू.अ.नि. वृत बीकानेर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल चकगरबी (ग्रामीण) (ii) पटवार मंडल नालबडी (iii) पटवार मंडल उदासर |
| 13. बीकानेर पश्चिम | 1. तहसील बीकानेर (आंशिक) — (I) नगर परिषद बीकानेर (आंशिक) — वार्ड नं. 1 से 4, 14 से 19, 21, 29 से 35, 44 से 49 एवं 53 से 55 (II) भू.अ.नि. वृत बीकानेर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल करमीसर (ग्रामीण) |
| 14. बीकानेर पूर्व | 1. तहसील बीकानेर (आंशिक) — (I) नगर परिषद बीकानेर (आंशिक) — वार्ड नं. 5 से 13, 20, 22 से 28, 36 से 43 एवं 50 से 52 (II) भू.अ.नि. वृत बीकानेर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल बीकानेर (ग्रामीण) (ii) पटवार मंडल गंगाशहर (ग्रामीण) |

| | |
|------------------------|---|
| 15. कोलायत | 1. तहसील कोलायत 2. तहसील बीकानेर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत देशनोक, नगर पालिका बोर्ड देशनोक को सम्मिलित करते हुए |
| 16. लूणकरणसर | 1. तहसील लूणकरणसर 2. तहसील बीकानेर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत जामसर (II) भू.अ.नि. वृत नापासर (III) भू.अ.नि. वृत बीकानेर (आंशिक) – (i) पटवार मंडल रिडमलसर पुरोहितान |
| 17. डूंगरगढ़ | 1. तहसील डूंगरगढ़ 2. तहसील नोखा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत कुचोर आथूणी |
| 18. नोखा | 1. तहसील नोखा भू.अ.नि. वृत कुचोर आथूणी को छोड़कर |
| 4. जिला चूरु | |
| 19. सादुलपुर | 1. तहसील राजगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत राजगढ़, नगर पालिका बोर्ड, राजगढ़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत हमीरवास बड़ा (III) भू.अ.नि. वृत राधा छोटी (IV) भू.अ.नि. वृत सांखू (V) भू.अ.नि. वृत चैनपुरा छोटा (VI) भू.अ.नि. वृत सिद्धमुख |
| 20. तारानगर | 1. तहसील तारानगर 2. तहसील राजगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत ददरेवा (II) भू.अ.नि. वृत डोकवा 3. तहसील सरदारशहर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत रातूसर |
| 21. सरदारशहर | 1. तहसील सरदारशहर भू.अ.नि. वृत रातूसर को छोड़कर 2. तहसील रतनगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत गोलसर |
| 22. चूरु | 1. तहसील चूरु |
| 23. रतनगढ़ | 1. तहसील रतनगढ़ भू.अ.नि. वृत गोलसर को छोड़कर 2. तहसील सुजानगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत छापर, नगरपालिका बोर्ड, छापर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत खूड़ी |
| 24. सुजानगढ़ (अ.जा.) | 1. तहसील सुजानगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत सुजानगढ़, नगर पालिका बोर्ड, सुजानगढ़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत जीली (III) भू.अ.नि. वृत सालासर (IV) भू.अ.नि. वृत बीदासर, नगरपालिका बोर्ड बीदासर को सम्मिलित करते हुए (V) भू.अ.नि. वृत लालगढ़ (VI) भू.अ.नि. वृत तेनदेसर |
| 5. जिला झुन्झुन | |
| 25. पिलानी (अ.जा.) | 1. तहसील चिड़ावा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत पिलानी, नगरपालिका बोर्ड, पिलानी एवं नगरपालिका बोर्ड विद्या विहार को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत चिड़ावा, नगरपालिका बोर्ड चिड़ावा को सम्मिलित करते हुए (III) भू.अ.नि. वृत मंडेला (IV) भू.अ.नि. वृत सुलताना (आंशिक) – (i) पटवार मंडल अरड़ावता (V) भू.अ.नि. वृत सूरजगढ़ (आंशिक) – (i) पटवार मंडल अडूका (ii) पटवार मंडल फरट (iii) पटवार मंडल सेही कला |
| 26. सूरजगढ़ | 1. तहसील बुहाना 2. तहसील चिड़ावा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत सूरजगढ़ (आंशिक) – (i) सूरजगढ़ नगर पालिका बोर्ड (ii) पटवार मंडल बल्लोदा (iii) पटवार मंडल बेरला (iv) पटवार मंडल भावठड़ी (v) पटवार मंडल धींगड़िया (vi) पटवार मंडल जाखोद (vii) पटवार मंडल काकोडा (viii) पटवार मंडल किडवाना (ix) पटवार मंडल लाखू (x) पटवार मंडल लोटिया (xi) पटवार मंडल महापालवास |

| | |
|---------------------|--|
| 27. झुन्झुनू | 1. तहसील झुन्झुनू (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत झुन्झुनू, नगरपालिका बोर्ड, झुन्झुनू एवं नगरपालिका बोर्ड, बगड को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत कुलोद कलां 2. तहसील चिड़ावा (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत सुलताना (आंशिक) — (i) पटवार मंडल चनाना (ii) पटवार मंडल सोलाना (iii) पटवार मंडल किशोरपुरा (iv) पटवार मंडल किठाना (v) पटवार मंडल सुलताना (vi) पटवार मंडल सारी |
| 28. मंडावा | 1. तहसील झुन्झुनू (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत मंडावा, नगरपालिका बोर्ड, मंडावा को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत बिसाऊ, नगरपालिका बोर्ड, बिसाऊ को सम्मिलित करते हुए (III) भू.अ.नि. वृत मलसीसर (IV) भू.अ.नि. वृत रामपुरा |
| 29. नवलगढ़ | 1. तहसील नवलगढ़ |
| 30. उदयपुरवाटी | 1. तहसील उदयपुरवाटी |
| 31. खेतड़ी | 1. तहसील खेतड़ी |
| 6. जिला सीकर | |
| 32. फतेहपुर | 1. तहसील फतेहपुर |
| 33. लक्ष्मणगढ़ | 1 तहसील लक्ष्मणगढ़ |
| 34. धौद (अ.जा.) | 1. तहसील सीकर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत धौद (II) भू.अ.नि. वृत सिहोट बड़ी (III) भू.अ.नि. वृत सिहोट छोटी (IV) भू.अ.नि. वृत दूजोद (V) भू.अ.नि. वृत दादिया (आंशिक) — (i) पटवार मंडल गोठड़ा भूकरान (ii) पटवार मंडल कुदन (iii) पटवार मंडल रसीदपुरा 2. तहसील दाता रामगढ़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत लोसल (आंशिक) — (i) लोसल नगर पालिका बोर्ड (ii) पटवार मंडल भगतपुरा (iii) पटवार मंडल भीमा (iv) पटवार मंडल जाना (v) पटवार मंडल सांगलिया (vi) पटवार मंडल खूड़ |
| 35. सीकर | 1. तहसील सीकर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत सीकर, नगर परिषद सीकर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत पिपराही (III) भू.अ.नि. वृत दादिया (आंशिक) — (i) पटवार मंडल दादिया (ii) पटवार मंडल गोठड़ा बेरी (iii) पटवार मंडल तारपुरा (iv) पटवार मंडल कोलीड़ा |
| 36. दाता रामगढ़ | तहसील दाता रामगढ़ के भू.अ.नि. वृत लोसल के लोसल नगर पालिका बोर्ड, पटवार मंडल भगतपुरा, पटवार मंडल भीमा, पटवार मंडल जाना, पटवार मंडल सांगलिया एवं पटवार मंडल खूड़ को छोड़कर |
| 37. खंडेला | 1. तहसील श्रीमाधोपुर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत खंडेला, नगर पालिका बोर्ड खंडेला को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत जाजोद (III) भू.अ.नि. कावंट (IV) भू.अ.नि. वृत रींगस, नगर पालिका बोर्ड रींगस को सम्मिलित करते हुए (V) भू.अ.नि. वृत श्रीमाधोपुर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल बरसी (ii) पटवार मंडल नीमेड़ा (iii) पटवार मंडल रलावता |
| 38. नीम का थाना | 1. तहसील नीम का थाना (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत नीम का थाना, नगर पालिका बोर्ड नीम का थाना को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत पाटन (III) भू.अ.नि. वृत चला (IV) भू.अ.नि. वृत डाबला |

| | |
|---------------------|--|
| 39. श्रीमाधोपुर | 1. तहसील श्रीमाधोपुर (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त मऊ, (II) भू.अ.नि. वृत्त अजीतगढ़ (III) भू.अ.नि. वृत्त श्रीमाधोपुर (आंशिक)—(i) नगर पालिका बोर्ड श्रीमाधोपुर (ii) पटवार मंडल श्रीमाधोपुर (ग्रामीण) (iii) पटवार मंडल हांसपुर (iv) पटवार मंडल कोटड़ी शिमारला (v) पटवार मंडल जोरावर नगर 2. तहसील नीम का थाना (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त सांवलपुरा तंवरान |
| 7. जिला जयपुर | |
| 40. कोटपूतली | 1. तहसील कोटपूतली (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त कोटपूतली, नगर पालिका बोर्ड कोटपूतली को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त नारेहड़ा (III) भू.अ.नि. वृत्त पनियाला (IV) भू.अ.नि. वृत्त दांतिल |
| 41. विराटनगर | 1. तहसील विराटनगर 2. तहसील कोटपूतली (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त पावटा 3. तहसील शाहपुरा (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त शाहपुरा (आंशिक) — (i) पटवार मंडल छापड़ा खुर्द (ii) पटवार मंडल नाथावाला (iii) पटवार मंडल रामपुरा (iv) पटवार मंडल साईवाड़ |
| 42. शाहपुरा | 1. तहसील शाहपुरा के भू.अ.नि. वृत्त शाहपुरा के पटवार मंडल छापड़ा खुर्द, पटवार मंडल नाथावाला, पटवार मंडल रामपुरा एवं पटवार मंडल साईवाड़ को छोड़कर 2. तहसील चोमू (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त खेजरोली (आंशिक) — (i) पटवार मंडल अमरपुरा (ii) पटवार मंडल खेजरोली (iii) पटवार मंडल नांगल कोजू (iv) पटवार मंडल निवाना (v) पटवार मंडल तिगरिया (vi) पटवार मंडल नांगल भरड़ा |
| 43. चोमू | 1. तहसील चोमू (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त चोमू नगर पालिका बोर्ड चोमू को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त गोविन्दगढ़ (III) भू.अ.नि. वृत्त कालाडेर (IV) भू.अ.नि. वृत्त खेजरोली (आंशिक) —(i) पटवार मंडल सिंगोद कला (ii) पटवार मंडल सिंगोद खुर्द (iii) पटवार मंडल इटावा भोपजी (iv) पटवार मंडल उदयपुरिया |
| 44. फुलेरा | 1. तहसील फुलेरा (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त सांभर, नगर पालिका बोर्ड सांभर एवं नगर पालिका बोर्ड फुलेरा को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त रेनवाल, नगर पालिका बोर्ड किशनगढ़ रेनवाल को सम्मिलित करते हुए (III) भू.अ.नि. वृत्त मैसलाना (IV) भू.अ.नि. वृत्त नरायना (V) भू.अ.नि. वृत्त करणसर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल डूंगरी खुर्द (ii) पटवार मंडल हरसोली (iii) पटवार मंडल खेड़ीमिलक (iv) पटवार मंडल रामजीपुरा कला |
| 45. दूदू (अ.जा.) | 1. तहसील मौजमाबाद 2. तहसील फागी (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त फागी (II) भू.अ.नि. वृत्त चोरू (III) भू.अ.नि. वृत्त मंडोर (IV) भू.अ.नि. वृत्त निमेड़ा |
| 46. झोटवाड़ा | 1. नगर निगम, जयपुर (आंशिक) —(I) वार्ड नं. 2 व 3, 2. तहसील जयपुर का समस्त ग्रामीण क्षेत्र, भू.अ.नि. वृत्त जयपुर पूर्व के पटवार मंडल सुमेल एवं जामडोली को छोड़कर 3. तहसील फुलेरा (आंशिक) —(I) भू.अ.नि. वृत्त जोबनेर, नगर पालिका बोर्ड, जोबनेर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त करणसर (आंशिक) — (i) पटवार मंडल करणसर (ii) पटवार मंडल मैसावा (iii) पटवार मंडल डूंगरीकलां (iv) पटवार मंडल हिंगोनिया (v) पटवार मंडल जोरपुरा सुन्दरियावास |

| | |
|---------------------------------|--|
| 47. आमेर | 1. तहसील आमेर, नगर निगम जयपुर के वार्ड नं. 53 को सम्मिलित करते हुए |
| 48. जमवा रामगढ़ (अ.ज.जा.) | 1. तहसील जमवा रामगढ़ |
| 49. हवा महल | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 51, 52, 54, 55, 58, 59 एवं 63 से 65 |
| 50. विद्याधर नगर | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 1, 8 से 10 एवं 68 से 70 |
| 51. सिविल लाईन्स | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 4 से 7, 11, 17, 36, 37, 66 एवं 67 |
| 52. किशन पोल | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 38 से 43, 45, 50, 56, 57 एवं 60 से 62 |
| 53. आदर्श नगर | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 29, 30, 32 से 34, 44 एवं 46 से 49, 2. तहसील जयपुर (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त जयपुर पूर्व (आंशिक) — (i) पटवार मंडल सुमेल (ii) पटवार मंडल जामडोली |
| 54. मालवीय नगर | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 15, 16, 18 से 21, 25 से 27, 31 एवं 35 |
| 55. सांगानेर | 1. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 12 से 14, 22 एवं 23 |
| 56. बगरू (अ.जा.) | 1. तहसील सांगानेर के बहरी क्षेत्र को छोड़कर परन्तु नगर पालिका बोर्ड, बगरू को सम्मिलित करते हुए 2. नगर निगम जयपुर (आंशिक) — वार्ड नं. 24 एवं 28 |
| 57. बस्सी (अ.ज.जा.) | 1. तहसील बस्सी 2. तहसील चाकसू (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त कोटरखावदा (आंशिक) — (i) पटवार मंडल महादेवपुरा (ii) पटवार मंडल रुपाहेड़ी कला (iii) पटवार मंडल नरपतपुरा (iv) पटवार मंडल रुपाहेड़ी खुर्द |
| 58. चाकसू (अ.जा.) | 1. तहसील चाकसू के भू.अ.नि. वृत्त कोटरखावदा के पटवार मंडल महादेवपुरा, पटवार मंडल रुपाहेड़ी कला, पटवार मंडल नरपतपुरा एवं पटवार मंडल रुपाहेड़ी खुर्द को छोड़कर 2. तहसील कामी (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त चित्तौड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त माधोसाजपुरा (III) भू.अ.नि. वृत्त रेनवाल |

8. जिला अलवर

| | |
|-----------------|---|
| 59. तिजारा | 1. तहसील तिजारा |
| 60. किशनगढ़ बास | 1. तहसील किशनगढ़ बास 2. तहसील कोटकासिम |
| 61. मुण्डावर | 1. तहसील मुण्डावर 2. तहसील बहरोड़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त नीमराना |
| 62. बहरोड़ | 1. तहसील बहरोड़ (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त बहरोड़ नगर पालिका बोर्ड बहरोड़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त बर्जोद (III) भू.अ.नि. वृत्त माढण (IV) भू.अ.नि. वृत्त गण्डाला |
| 63. बानसूर | 1. तहसील बानसूर 2. तहसील थानगगाजी (आंशिक) — (I) भू.अ.नि. वृत्त मारायणपुर |

| | |
|---------------------------------|--|
| 64. थानागाजी | 1. तहसील थानागाजी भू.अ.नि. वृत्त नारायणपुर को छोड़कर 2. तहसील राजगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त राजपुर बड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त टहला (III) भू.अ.नि. वृत्त खोह (IV) भू.अ.नि. वृत्त राजगढ़ (आंशिक) – (i) पटवार मंडल दुब्बी (ii) पटवार मंडल कारोठ (iii) पटवार मंडल नयागांव बोलका (iv) पटवार मंडल धमरेड (v) पटवार मंडल थाना राजाजी |
| 65. अलवर ग्रामीण (अ.जा.) | 1. तहसील अलवर के भू.अ.नि. वृत्त अलवर, के नगर परिषद अलवर एवं पटवार मंडल अलवर ग्रामीण, पटवार मंडल भूगोर एवं पटवार मंडल दिवाकरी को छोड़कर |
| 66. अलवर शहर | 1. तहसील अलवर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त अलवर (आंशिक) – (i) नगर परिषद अलवर (ii) पटवार मंडल अलवर ग्रामीण (iii) पटवार मंडल भूगोर (iv) पटवार मंडल दिवाकरी |
| 67. रामगढ़ | 1. तहसील रामगढ़ 2. तहसील लक्ष्मणगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त गोविन्दगढ़ (II) भू.अ.नि. वृत्त बड़ोदा मेव (III) भू.अ.नि. वृत्त मोलिया (आंशिक) – (i) पटवार मंडल दोंगड़ी (ii) पटवार मंडल सेमला खुर्द (iii) पटवार मंडल भैंसड़ावत (iv) पटवार मंडल फाहरी |
| 68. राजगढ़—लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.) | 1. तहसील राजगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त माचाड़ी (II) भू.अ.नि. वृत्त पीनान (III) भू.अ.नि. वृत्त रेणी (IV) भू.अ.नि. वृत्त ढिगावड़ा (V) भू.अ.नि. वृत्त राजगढ़ (आंशिक) – (i) नगर पालिका बोर्ड राजगढ़ (ii) पटवार मंडल राजगढ़ –ए (iii) पटवार मंडल राजगढ़ –बी (iv) पटवार मंडल अलेई 2. तहसील लक्ष्मणगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त लक्ष्मणगढ़ (II) भू.अ.नि. वृत्त बिचगांव (III) भू.अ.नि. वृत्त मौजपुर |
| 69. कठुमार (अ.जा.) | 1. तहसील कठुमार 2. तहसील लक्ष्मणगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खुड़ियाना (II) भू.अ.नि. वृत्त मोलिया (आंशिक) – (i) पटवार मंडल मोलिया (ii) पटवार मंडल बडका (iii) पटवार मंडल इटेडा |
| 9. जिला भरतपुर | |
| 70. कामां | 1. तहसील कामां 2. तहसील पहाड़ी |
| 71. नगर | 1. तहसील नगर 2. तहसील डीग (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खोह (II) भू.अ.नि. वृत्त पास्ता (III) भू.अ.नि. वृत्त बेदम (IV) भू.अ.नि. वृत्त जनूथर |
| 72. डीग – कुम्हेर | 1. तहसील कुम्हेर 2. तहसील डीग (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त डीग, नगर पालिका बोर्ड डीग को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त कासोट (III) भू.अ.नि. वृत्त बरौली चौथ (IV) भू.अ.नि. वृत्त सिनसिनी |
| 73. भरतपुर | 1. तहसील भरतपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त भरतपुर, नगर परिषद भरतपुर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त पीपला (III) भू.अ.नि. वृत्त चिकसाना (IV) भू.अ.नि. वृत्त जर्घीना |
| 74. नदबई | 1. तहसील नदबई 2. तहसील भरतपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त सेवर नगर परिषद भरतपुर में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर (II) भू.अ.नि. वृत्त अघापुर 3. तहसील रूपबास (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खानुआ (II) भू.अ.नि. वृत्त उच्चैन |
| 75. वैर (अ.जा.) | 1. तहसील वैर 2. तहसील बयाना (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त फरसो (II) भू.अ.नि. वृत्त खरैरी |

| | |
|--------------------------|--|
| 76. बयाना (अ.जा.) | 1. तहसील बयाना (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बयाना, नगर पालिका बोर्ड बयाना को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत समोगर (III) भू.अ.नि. वृत महमदपुरा (IV) भू.अ.नि. वृत मिलकपुर 2. तहसील रूपबास (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत रूपबास (II) भू.अ.नि. वृत खानसूरजापुर (III) भू.अ.नि. वृत रुदावल |
| 10. जिला धौलपुर | |
| 77. बसेड़ी (अ.जा.) | 1. तहसील बसेड़ी 2. तहसील बाड़ी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत उमरेह |
| 78. बाड़ी | 1. तहसील बाड़ी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत कस्बा बाड़ी, नगर पालिका बोर्ड बाड़ी को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत बसईडांग (III) भू.अ.नि. वृत तालाबशाही (IV) भू.अ.नि. वृत कंचनपुर 2. तहसील सेपऊ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत सेपऊ (II) भू.अ.नि. वृत दोनारी (III) भू.अ.नि. वृत बसई नवाब |
| 79. धौलपुर | 1. तहसील धौलपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत धौलपुर, नगर पालिका बोर्ड धौलपुर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत जाटोली (III) भू.अ.नि. वृत पचगांव 2. तहसील सेपऊ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत करीमपुर (II) भू.अ.नि. वृत कोलारी |
| 80. राजाखेड़ा | 1. तहसील राजाखेड़ा 2. तहसील धौलपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत मढ़ाभाऊ (II) भू.अ.नि. वृत मनियां |
| 11. जिला करौली | |
| 81. टोडाभीम (अ.ज.जा.) | 1. तहसील नादोती 2. तहसील टोडाभीम (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत टोडाभीम, नगर पालिका बोर्ड, टोडाभीम को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत कमालपुरा (III) भू.अ.नि. वृत करीरी (IV) भू.अ.नि. वृत पदमपुरा (V) भू.अ.नि. वृत नागल शेरपुर (VI) भू.अ.नि. वृत बालघाट |
| 82. हिन्डौन (अ.जा.) | 1. तहसील हिन्डौन (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत हिन्डौन, नगर पालिका बोर्ड, हिन्डौन को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत श्रीमहावीरजी (III) भू.अ.नि. वृत बरगवां (IV) भू.अ.नि. वृत महु इब्राहिमपुर (V) भू.अ.नि. वृत सुराठ 2. तहसील टोडाभीम (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत महमदपुर |
| 83. करौली | 1. तहसील करौली (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत करौली, नगर पालिका बोर्ड, करौली को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत चैनपुर (III) भू.अ.नि. वृत गुनेसरा (IV) भू.अ.नि. वृत खेड़िया (V) भू.अ.नि. वृत मासलपुर 2. तहसील हिन्डौन (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत खेड़ा (II) भू.अ.नि. वृत शेरपुर |
| 84. सपोटरा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील सपोटरा 2. तहसील मन्डरायल 3. तहसील करौली (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत महोली (II) भू.अ.नि. वृत कैलादेवी |
| 12. जिला दौसा | |
| 85. बांदीकुई | 1. तहसील बसवा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बांदीकुई, नगर पालिका बोर्ड, बांदीकुई को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत बसवा (III) भू.अ.नि. वृत बड़ियालकलां (IV) भू.अ.नि. वृत गुढ़ाकटला (V) भू.अ.नि. वृत गुढ़लिया (VI) भू.अ.नि. वृत बिवाई |
| 86. महवा | 1. तहसील महवा 2. तहसील बसवा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बैजूपाडा |

| | |
|------------------------------|--|
| 87. सिकराय (अ.जा.) | 1. तहसील सिकराय 2. तहसील दौसा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त अलूदा (II) भू.अ.नि. वृत्त भांडारेज |
| 88. दौसा | 1. तहसील दौसा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त दौसा, नगर पालिका बोर्ड, दौसा को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त जसोता (III) भू.अ.नि. वृत्त कुण्डल (IV) भू.अ.नि. वृत्त लवाण (V) भू.अ.नि. वृत्त सैथल (VI) भू.अ.नि. वृत्त बनियाना (VII) भू.अ.नि. वृत्त नागल राजावतान |
| 89. लालसोट (अ.ज.जा.) | 1. तहसील लालसोट |
| 13. जिला सवाई माधोपुर | |
| 90. गंगापुर | 1. तहसील गंगापुर |
| 91. बामनवास (अ.ज.जा.) | 1. तहसील बामनवास 2. तहसील बौली |
| 92. सवाई माधोपुर | 1. तहसील मलारना डूंगर 2. तहसील सवाई माधोपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त सवाई माधोपुर, नगर पालिका बोर्ड, सवाई माधोपुर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त सेलू (III) भू.अ.नि. वृत्त सूरवाल (IV) भू.अ.नि. वृत्त कुण्डेरा |
| 93. खण्डार (अ.जा.) | 1. तहसील खण्डार 2. तहसील चौथ का बरवाड़ा 3. तहसील सवाई माधोपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त कुस्तला (II) भू.अ.नि. वृत्त फलोदी (III) भू.अ.नि. वृत्त रवाजना चौड़ |
| 14. जिला टोंक | |
| 94. मालपुरा | 1. तहसील मालपुरा 2. तहसील टोडरायसिंह (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त टोडरायसिंह नगरपालिका बोर्ड, टोडरायसिंह को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त दतोब (III) भू.अ.नि. वृत्त मोर |
| 95. निवाई (अ.जा.) | 1. तहसील निवाई 2. तहसील पीपलू |
| 96. टोंक | 1. तहसील टोंक 2. तहसील टोडरायसिंह (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खरेड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त लाम्बाकलां |
| 97. देवली – उनियारा | 1. तहसील देवली 2. तहसील उनियारा |
| 15. जिला अजमेर | |
| 98. किशनगढ़ | 1. तहसील किशनगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त किशनगढ़, नगरपालिका बोर्ड, किशनगढ़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त हरमाड़ा (III) भू.अ.नि. वृत्त सिरोंज (IV) भू.अ.नि. वृत्त आकोड़िया (V) भू.अ.नि. वृत्त अराई (VI) भू.अ.नि. वृत्त बांदर सिंदरी (VII) भू.अ.नि. वृत्त लाम्बा (VIII) भू.अ.नि. वृत्त बरना (IX) भू.अ.नि. वृत्त रलावता 2. तहसील सरवाड़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त डबरेला (II) भू.अ.नि. वृत्त बोराड़ा |
| 99. पुष्कर | 1. तहसील अजमेर, नगर परिषद, अजमेर एवं भू.अ.नि. वृत्त अजमेर—III को छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र 2. तहसील किशनगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त करकेड़ी (II) भू.अ.नि. वृत्त कोटड़ी (III) भू.अ.नि. वृत्त रूपनगढ़ |
| 100. अजमेर उत्तर | 1. तहसील अजमेर (आंशिक) – (I) अजमेर नगर परिषद (आंशिक) – अजमेर केन्टोनमेन्ट बोर्ड को सम्मिलित करते हुए वार्ड नं. 1 से 5, 16, 17, 19 से 32 एवं 49 से 55, (II) भू.अ.नि. वृत्त अजमेर – III |

| | |
|---------------------------|---|
| 101. अजमेर दक्षिण (अ.जा.) | 1. तहसील अजमेर (आंशिक) – (I) अजमेर नगर परिषद (आंशिक) – वार्ड नं. 6 से 15, 18 एवं 33 से 48 |
| 102. नसीराबाद | 1. तहसील नसीराबाद 2. तहसील पीसांगन |
| 103. ब्यावर | 1. तहसील ब्यावर |
| 104. मसूदा | 1. तहसील मसूदा 2. तहसील भिनाय |
| 105. केकड़ी | 1. तहसील केकड़ी 2. तहसील सरवाड़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त सरवाड़, नगरपालिका बोर्ड, सरवाड़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त अजगरा (III) भू.अ.नि. वृत्त हिंगोनिया (IV) भू.अ.नि. वृत्त सापला (V) भू.अ.नि. वृत्त फतेहगढ़ (VI) भू.अ.नि. वृत्त गोयला (VII) भू.अ.नि. वृत्त टाटोटी |
| 16. जिला नागौर | |
| 106. लाडनू | 1. तहसील लाडनू 2. तहसील डीडवाना (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त नूवा |
| 107. डीडवाना | 1. तहसील डीडवाना (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त डीडवाना, नगरपालिका बोर्ड, डीडवाना को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त खूनखुना (III) भू.अ.नि. वृत्त मोलासर (IV) भू.अ.नि. वृत्त खाटू खुर्द |
| 108. जायल (अ.जा.) | 1. तहसील जायल 2. तहसील नागौर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त जोधियासी |
| 109. नागौर | 1. तहसील नागौर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त नागौर, नगरपालिका बोर्ड, नागौर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त अलाय (III) भू.अ.नि. वृत्त मूण्डवा, नगरपालिका बोर्ड, मूण्डवा को सम्मिलित करते हुए (IV) भू.अ.नि. वृत्त कुमारी |
| 110. खीवसर | 1. तहसील खीवसर 2. तहसील नागौर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खरनाल (II) भू.अ.नि. वृत्त संखवास (III) भू.अ.नि. वृत्त खजवाना, नगरपालिका बोर्ड, कुचेरा को सम्मिलित करते हुए 3. तहसील मेड़ता (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त नोखा चांदावतां |
| 111. मेड़ता (अ.जा.) | 1. तहसील मेड़ता (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त मेड़ता, नगरपालिका बोर्ड, मेड़ता सिटी को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त रियाबड़ी (III) भू.अ.नि. वृत्त पादूकलां (IV) भू.अ.नि. वृत्त गोटेन (V) भू.अ.नि. वृत्त जसनगर (VI) भू.अ.नि. वृत्त गगराना (VII) भू.अ.नि. वृत्त मेड़ता रोड़ (फलोदी) |
| 112. डेगाना | 1. तहसील डेगाना |
| 113. मकराना | 1. तहसील मकराना |
| 114. परबतसर | 1. तहसील परबतसर 2. तहसील नावां (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त मीठड़ी (II) भू.अ.नि. वृत्त कुचामन सिटी (आंशिक) – (i) पटवार मण्डल आनन्दपुरा (ii) पटवार मंडल रसाल (iii) पटवार मंडल रूपपुरा |
| 115. नावा | 1. तहसील नावा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त नावा, नगरपालिका बोर्ड, नावा को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त चितावा (III) भू.अ.नि. वृत्त लूणवा (IV) भू.अ.नि. वृत्त मारोठ (V) भू.अ.नि. वृत्त कुचामन सिटी (आंशिक) – (i) नगर पालिका बोर्ड, कुचामन सिटी (ii) पटवार मंडल भांवता (iii) पटवार मंडल हिराणी (iv) पटवार मंडल जीलिया (v) पटवार मंडल पांचवा (vi) पटवार मंडल परेवड़ी (vii) पटवार मंडल सबलपुरा |

| 17. जिला पाली | |
|-----------------------|---|
| 116. जैतारण | 1. तहसील जैतारण 2. तहसील रायपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त कोट किराना (II) भू.अ.नि. वृत्त बाबरा (III) भू.अ.नि. वृत्त सेंदड़ा (IV) भू.अ.नि. वृत्त रायपुर (आंशिक) – (i) पटवार मंडल बर (ii) पटवार मंडल दीपावास |
| 117. सोजत (अ.जा.) | 1. तहसील सोजत 2. तहसील रायपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त रायपुर पटवार मंडल बर एवं पटवार मंडल दीपावास को छोड़कर (II) भू.अ.नि. वृत्त पीपलीया कलां |
| 118. पाली | 1. तहसील पाली (आंशिक) – 1. नगर परिषद पाली 2. तहसील रोहट |
| 119. मारवाड़ जंक्शन | 1. तहसील मारवाड़ जंक्शन 2. तहसील देसूरी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त खीवाड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त मगरतलाव (III) भू.अ.नि. वृत्त रानी, नगर पालिका बोर्ड, रानी खुर्द को सम्मिलित करते हुए |
| 120. बाली | 1. तहसील बाली 2. तहसील देसूरी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त देसूरी, नगर पालिका बोर्ड, सादड़ी को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त नाडोल |
| 121. सुमेरपुर | 1. तहसील सुमेरपुर 2. तहसील पाली का सम्पूर्ण क्षेत्र, नगर परिषद क्षेत्र पाली को छोड़ते हुए |
| 18. जिला जोधपुर | |
| 122. फलौदी | 1. तहसील फलौदी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त फलौदी, नगर पालिका बोर्ड, फलौदी को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त बाप (III) भू.अ.नि. वृत्त आऊ (आंशिक) – (i) पटवार मंडल भीयासर (ii) पटवार मंडल भोजासर (iii) पटवार मंडल बंगडी (iv) पटवार मंडल चाम्पासर (v) पटवार मंडल घन्टियाली (vi) पटवार मंडल जैसला (vii) पटवार मंडल पड़ियाल (viii) पटवार मंडल केलनसर |
| 123. लोहावट | 1. तहसील फलौदी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त लोहावट (II) भू.अ.नि. वृत्त आऊ (आंशिक) – (i) पटवार मंडल आऊ (ii) पटवार मंडल चाड़ी (iii) पटवार मंडल ईशरू (iv) पटवार मंडल रिड़मलसर 2. तहसील ओसियां (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त बापिणी 3. तहसील शेरगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त सैतरावा |
| 124. शेरगढ़ | 1. तहसील शेरगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त शेरगढ़ (II) भू.अ.नि. वृत्त सोलकियातला (III) भू.अ.नि. वृत्त बालेसर (IV) भू.अ.नि. वृत्त चामू |
| 125. ओसियां | 1. तहसील ओसियां (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त ओसियां (II) भू.अ.नि. वृत्त मथानिया (III) भू.अ.नि. वृत्त तिवरी (IV) भू.अ.नि. वृत्त चेराई |
| 126. भोपालगढ़ (अ.जा.) | 1. तहसील भोपालगढ़ 2. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त जाजीवालकलां |
| 127. सरदारपुरा | 1. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) नगर निगम जोधपुर (आंशिक) – वार्ड नं. 32 से 34, 36, 38, 39 एवं 48 से 59 |
| 128. जोधपुर | 1. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) नगर निगम जोधपुर (आंशिक) – वार्ड नं. 19 से 31, 35, 37 एवं 40 से 47 |
| 129. सूरसागर | 1. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) नगर निगम जोधपुर (आंशिक) – वार्ड नं. 1 से 18 एवं 60 |

| | |
|-------------------------|---|
| 130. लूणी | 1. तहसील लूणी 2. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत करू (II) भू.अ.नि. वृत मण्डोर (III) भू.अ.नि. वृत जोधपुर (आंशिक) – (i) पटवार मंडल बागां (ii) पटवार मंडल नांदड़ा कला (iii) पटवार मंडल झालामंड (iv) पटवार मंडल पाल |
| 131. बिलाड़ा (अ.जा.) | 1. तहसील बिलाड़ा 2. तहसील जोधपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बीसलपुर (II) भू.अ.नि. वृत डांगियावास |
| 19. जिला जैसलमेर | |
| 132. जैसलमेर | 1. तहसील जैसलमेर 2. तहसील फतेहगढ़ |
| 133. पोकरण | 1. तहसील पोकरण |
| 20. जिला बाड़मेर | |
| 134. शिव | 1. तहसील शिव 2. तहसील रामसर 3. तहसील चौहटन (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बिजराड़, |
| 135. बाड़मेर | 1. तहसील बाड़मेर |
| 136. बायतू | 1. तहसील बायतू 2. तहसील पचपदरा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत पाटोदी |
| 137. पचपदरा | 1. तहसील पचपदरा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत पचपदरा (II) भू.अ.नि. वृत जसोल, नगर पालिका बोर्ड, बालोतरा को सम्मिलित करते हुए (III) भू.अ.नि. वृत कल्याणपुर (IV) भू.अ.नि. वृत तिलवाड़ा (V) भू.अ.नि. वृत थोब |
| 138. सिवाना | 1. तहसील सिवाना 2. तहसील गुड़ा मालानी (आंशिक) (I) भू.अ.नि. वृत सिणधरी |
| 139. गुड़ा मालानी | 1. तहसील गुड़ा मालानी भू.अ.नि. वृत सिणधरी को छोड़कर |
| 140. चौहटन (अ.जा.) | 1. तहसील चौहटन का सम्पूर्ण क्षेत्र भू.अ.नि. वृत बिजराड़ को छोड़कर |
| 21. जिला जालोर | |
| 141. आहोर | 1. तहसील आहोर 2. तहसील जालोर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत बागरा |
| 142. जालोर (अ.जा.) | 1. तहसील सायला 2. तहसील जालोर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत जालोर, नगर पालिका बोर्ड, जालोर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत बाकरा (III) भू.अ.नि. वृत माण्डवला |
| 143. भीनमाल | 1. तहसील बागोड़ा 2. तहसील भीनमाल (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत भरुड़ी (II) भू.अ.नि. वृत दासपां (III) भू.अ.नि. वृत मोदरा (IV) भू.अ.नि. वृत रामसीन (V) भू.अ.नि. वृत भीनमाल (आंशिक) – (i) नगर पालिका बोर्ड, भीनमाल (ii) पटवार मंडल भागलभीम (iii) पटवार मंडल गजीपुरा (iv) पटवार मंडल सिणधरा (v) पटवार मंडल निम्बावास (vi) पटवार मंडल निम्बोड़ा (vii) पटवार मंडल दांतीवास (viii) पटवार मंडल फागोतरा (ix) पटवार मंडल पुनासा (x) पटवार मंडल थोबाऊ |
| 144. सांचोर | 1. तहसील सांचोर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत, सांचोर, नगर पालिका बोर्ड, सांचोर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत चितलवाना (III) भू.अ.नि. वृत झाब (IV) भू.अ.नि. वृत सरवाना (V) भू.अ.नि. वृत सुराचन्द (VI) भू.अ.नि. वृत अरणाय |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 145. रानीवाड़ा | 1. तहसील रानीवाड़ा 2. तहसील सांचोर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, सरनाऊ 3. तहसील भीनमाल (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, जसवन्तपुरा (II) भू.अ.नि. वृत्त भीनमाल (आंशिक) – (i) पटवार मंडल पावली (ii) पटवार मंडल सावीदर |
| 22. जिला सिरौही | |
| 146. सिरौही | 1. तहसील सिरौही 2. तहसील शिवगंज |
| 147. पिंडवाड़ा—आबू (अ.ज.जा.) | 1. तहसील पिंडवाड़ा 2. तहसील आबू रोड़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, आबू पर्वत, (आंशिक) – (i) नगर पालिका बोर्ड, आबू पर्वत (ii) पटवार मंडल ओरिया (II) भू.अ.नि. वृत्त, किंवरली |
| 148. रेवदर (अ.जा.) | 1. तहसील रेवदर 2. तहसील आबू रोड़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, आबू रोड़, नगर पालिका बोर्ड, आबू रोड़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त, मूंगथला (III) भू.अ.नि. वृत्त, आबू पर्वत, (आंशिक) – (i) पटवार मंडल मानपुर (ii) पटवार मंडल मोरथला |
| 23. जिला उदयपुर | |
| 149. गोगून्दा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील गोगून्दा 2. तहसील कोटड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, मालवा का चोरा (II) भू.अ.नि. वृत्त, वास 3. तहसील गिर्वा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, ईसवाल (II) भू.अ.नि. वृत्त बड़गांव (आंशिक) – (i) पटवार मंडल बड़गांव (ii) पटवार मंडल मदार (iii) पटवार मंडल थूर (iv) पटवार मंडल लखावली |
| 150. झाड़ोल (अ.ज.जा.) | 1. तहसील झाड़ोल 2. तहसील कोटड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, कोटड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त, बिकरणी |
| 151. खेरवाड़ा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील खेरवाड़ा 2. तहसील सराड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, सेमारी |
| 152. उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.) | 1. तहसील गिर्वा (आंशिक) – (I) उदयपुर नगर परिषद (आंशिक) – वार्ड नं. 6 से 9, 24 से 27 एवं 39 (II) भू.अ.नि. वृत्त, बरापाल (III) भू.अ.नि. वृत्त, भोइयों की पंचोली (IV) भू.अ.नि. वृत्त, नाई (V) भू.अ.नि. वृत्त, शहर (आंशिक) – (i) पटवार मंडल सवीना (ii) पटवार मंडल शोभागपुरा (iii) पटवार मंडल तीतरडी (iv) पटवार मंडल गोर्वधन विलास (v) पटवार मंडल ढीकली (vi) पटवार मंडल मादड़ी पुरोहितान (vii) पटवार मंडल भुवाणा |
| 153. उदयपुर | 1. तहसील गिर्वा (आंशिक) – (I) उदयपुर नगर परिषद (आंशिक) – वार्ड नं. 1 से 5, 10 से 23, 28 से 38 एवं 40 से 50 |
| 154. मावली | 1. तहसील मावली 2. तहसील गिर्वा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, बड़गांव (आंशिक) – (i) पटवार मंडल बेदला (ii) पटवार मंडल चीरवा (iii) पटवार मंडल कैलाशपुरी (iv) पटवार मंडल सापेटिया (II) भू.अ.नि. वृत्त, देबारी (आंशिक) – (i) पटवार मंडल भैंसड़ा कलां (ii) पटवार मंडल भलों का गुढ़ा (iii) पटवार मंडल देबारी (iv) पटवार मंडल लकड़वास (v) पटवार मंडल साकरोदा |
| 155. वल्लभनगर | 1. तहसील वल्लभनगर 2. तहसील गिर्वा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, बम्बोरा (II) भू.अ.नि. वृत्त, कुराबड़ (III) भू.अ.नि. वृत्त, देबारी (आंशिक) – (i) पटवार मंडल शिशवी |

| | |
|-----------------------------|---|
| 156. सलूम्वर (अ.ज.जा.) | 1. तहसील सलूम्वर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, सलूम्वर, नगर पालिका बोर्ड, सलूम्वर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त, बरोडा (III) भू.अ.नि. वृत्त, खरका 2. तहसील सराड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, सराड़ा (II) भू.अ.नि. वृत्त, जयसमन्द (III) भू.अ.नि. वृत्त पलोदड़ा (IV) भू.अ.नि. वृत्त सल्लाड़ा |
| 157. धरियावद (अ.ज.जा.) | 1. तहसील धरियावद 2. तहसील सलूम्वर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, झल्लारा (II) भू.अ.नि. वृत्त, भवराना |
| 24. जिला डूंगरपुर | |
| 158. डूंगरपुर (अ.ज.जा.) | 1. तहसील डूंगरपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, डूंगरपुर, नगर पालिका बोर्ड, डूंगरपुर को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त, बिछीवाड़ा (III) भू.अ.नि. वृत्त, देवल (IV) भू.अ.नि. वृत्त, थाणा (V) भू.अ.नि. वृत्त, गैजी (आंशिक) – (i) पटवार मंडल माड़ा (ii) पटवार मंडल भेहणा (iii) पटवार मंडल गलन्दर (iv) पटवार मंडल गामड़ी अहाड़ा (v) पटवार मंडल मेवाड़ा (vi) पटवार मंडल रामपुर मेवाड़ा |
| 159. आसपुर (अ.ज.जा.) | 1. तहसील आसपुर 2. तहसील डूंगरपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, आंतरी (II) भू.अ.नि. वृत्त, फ़्लोज |
| 160. सागवाड़ा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील सागवाड़ा |
| 161. चौरासी (अ.ज.जा.) | 1. तहसील सीमलवाड़ा 2. तहसील डूंगरपुर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, गैजी (आंशिक) – (i) पटवार मंडल रैटा (ii) पटवार मंडल विकास नगर (iii) पटवार मंडल गैजी (iv) पटवार मंडल महड़ी |
| 25. जिला बांसवाड़ा | |
| 162. घाटोल (अ.ज.जा.) | 1. तहसील घाटोल |
| 163. गढ़ी (अ.ज.जा.) | 1. तहसील गढ़ी 2. तहसील बांसवाड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, तलवाड़ा |
| 164. बांसवाड़ा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील बांसवाड़ा का सम्पूर्ण क्षेत्र भू.अ.नि. वृत्त, तलवाड़ा को छोड़कर |
| 165. बागीदोरा (अ.ज.जा.) | 1. तहसील बागीदोरा |
| 166. कुशलगढ़ (अ.ज.जा.) | 1. तहसील कुशलगढ़ |
| 26. जिला चित्तौड़गढ़ | |
| 167. कपासन (अ.जा.) | 1. तहसील कपासन 2. तहसील राशमी 3. तहसील भदेसर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, बानसेन (II) भू.अ.नि. वृत्त, भादसोड़ा |
| 168. बेगू (अ.जा.) | 1. तहसील बेगू 2. तहसील रावतभाटा 3. तहसील गंगरार का सम्पूर्ण क्षेत्र नगर पालिका बोर्ड, चित्तौड़गढ़ में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर |
| 169. चित्तौड़गढ़ (अ.जा.) | 1. तहसील चित्तौड़गढ़ 2. तहसील गंगरार (आंशिक) – (I) चित्तौड़गढ़ नगर पालिका बोर्ड में सम्मिलित क्षेत्र 3. तहसील भदेसर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, भदेसर |
| 170. निम्बाहेड़ा (अ.जा.) | 1. तहसील निम्बाहेड़ा 2. तहसील छोटी सादड़ी |

| | |
|--------------------------|--|
| 171. बड़ी सादड़ी | 1. तहसील बड़ी सादड़ी 2. तहसील डंगला 3. तहसील भदेसर (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, आसावरा 4. तहसील प्रतापगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, देवगढ़ (II) भू.अ.नि. वृत्त, धमोतर |
| 172. प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.) | 1. तहसील अरनोद 2. तहसील प्रतापगढ़ (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, प्रतापगढ़, नगर पालिका बोर्ड, प्रतापगढ़ को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त, पानमोड़ी (III) भू.अ.नि. वृत्त, अंवलेश्वर (IV) भू.अ.नि. वृत्त, सुहागपुरा |
| 27. जिला राजसमन्द | |
| 173. भीम | 1. तहसील भीम 2. तहसील देवगढ़ |
| 174. कुम्भलगढ़ | 1. तहसील कुम्भलगढ़ 2. तहसील आमेट |
| 175. राजसमन्द | 1. तहसील राजसमन्द 2. तहसील रेलमगरा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, कुरज (II) भू.अ.नि. वृत्त, गिलुण्ड |
| 176. नाथद्वारा | 1. तहसील नाथद्वारा 2. तहसील रेलमगरा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, रेलमगरा (II) भू.अ.नि. वृत्त, बनेडियां |
| 28. जिला भीलवाड़ा | |
| 177. आसीन्द | 1. तहसील आसीन्द 2. तहसील हरड़ा |
| 178. माण्डल | 1. तहसील माण्डल 2. तहसील भीलवाड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, दांथल (II) भू.अ.नि. वृत्त, मंगरोप (III) भू.अ.नि. वृत्त, सुवाणा (IV) भू.अ.नि. वृत्त, भीलवाड़ा नगर परिषद भीलवाड़ा को छोड़कर |
| 179. सहाड़ा | 1. तहसील सहाड़ा 2. तहसील रायपुर 3. तहसील भीलवाड़ा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, कारोई कलां (II) भू.अ.नि. वृत्त, पुर नगर परिषद भीलवाड़ा में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर (III) भू.अ.नि. वृत्त, हमीरगढ़ |
| 180. भीलवाड़ा | 1. तहसील भीलवाड़ा (आंशिक) – (I) नगर परिषद भीलवाड़ा |
| 181. शाहपुरा (अ.जा.) | 1. तहसील शाहपुरा 2. तहसील बनेड़ा |
| 182. जहाजपुर | 1. तहसील जहाजपुर 2. तहसील कोटड़ी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, कोटड़ी (II) भू.अ.नि. वृत्त, सवाईपुर (III) भू.अ.नि. वृत्त, पारोली |
| 183. माण्डलगढ़ | 1. तहसील माण्डलगढ़ 2. तहसील बिजोलिया 3. तहसील कोटड़ी (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, नन्दराय (II) भू.अ.नि. वृत्त, बड़लियास |
| 29. जिला बून्दी | |
| 184. हिण्डोली | 1. तहसील हिण्डोली 2. तहसील नैनवा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, नैनवा, नगर पालिका बोर्ड, नैनवा को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्त, जजावर (III) भू.अ.नि. वृत्त, बांसी (IV) भू.अ.नि. वृत्त, देई |
| 185. केशोरायपाटन (अ.जा.) | 1. तहसील केशोरायपाटन 2. तहसील इन्द्रगढ़ 3. तहसील नैनवा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, जैतपुर (II) भू.अ.नि. वृत्त, करवर (III) भू.अ.नि. वृत्त, बामन गांव |
| 186. बून्दी | 1. तहसील बून्दी |
| 30. जिला कोटा | |
| 187. पीपल्दा | 1. तहसील पीपल्दा 2. तहसील दीगोद (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्त, बड़ौद (II) भू.अ.नि. वृत्त, सुल्तानपुर (III) भू.अ.नि. वृत्त, झाड़गांव |

| | |
|---------------------------|--|
| 188. सांगोद | 1. तहसील सांगोद 2. तहसील दीगोद (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, दीगोद (II) भू.अ.नि. वृत्, रेल (III) भू.अ.नि. वृत्, सीमल्या |
| 189. कोटा उत्तर | 1. तहसील लाडपुरा (आंशिक) – (I) कोटा नगर निगम (आंशिक) – वार्ड नं. 1, 2, 12 से 32 एवं 49 से 52 |
| 190. कोटा दक्षिण | 1. तहसील लाडपुरा (आंशिक) – (I) कोटा नगर निगम (आंशिक) – वार्ड नं. 3 से 6, 33 से 42, 53 से 58 एवं 60 |
| 191. लाडपुरा | 1. तहसील लाडपुरा (आंशिक) – (I) कोटा नगर निगम (आंशिक) – वार्ड नं. 7 से 11, 43 से 48 एवं 59 (II) भू.अ.नि. वृत्, कैथून, नगर पालिका बोर्ड, कैथून को सम्मिलित करते हुए (III) भू.अ.नि. वृत्, ताथेड़ (IV) भू.अ.नि. वृत्, मण्डाना (आंशिक) – (i) पटवार मंडल काल्या खेड़ी (ii) पटवार मंडल मण्डाना (iii) पटवार मंडल मांदल्या (iv) पटवार मंडल आलनिया (v) पटवार मंडल रानपुर (vi) पटवार मंडल कसार (V) भू.अ.नि. वृत्, लाडपुरा (आंशिक) – (i) पटवार मंडल किशनपुरा तकिया (ii) पटवार मंडल रंगपुर (iii) पटवार मंडल गिरधरपुरा |
| 192. रामगंज मण्डी (अ.जा.) | 1. तहसील रामगंज मण्डी 2. तहसील लाडपुरा (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, मण्डाना (आंशिक) – (i) पटवार मंडल बोराबास (ii) पटवार मंडल धरमपुरा (iii) पटवार मंडल भंवरिया (iv) पटवार मंडल डोल्या (v) पटवार मंडल डोबड़ा |
| 31. जिला बारा | |
| 193. अंता | 1. तहसील अंता 2. तहसील मांगरोल 3. तहसील बारां (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, कोयला (II) भू.अ.नि. वृत्, बामला |
| 194. किशनगंज (अ.ज.जा.) | 1. तहसील किशनगंज 2. तहसील शाहबाद |
| 195. बारां-अटरू (अ.जा.) | 1. तहसील अटरू 2. तहसील बारां (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, बारां, नगर पालिका बोर्ड, बारां को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्, फतेहपुर |
| 196. छबड़ा | 1. तहसील छबड़ा 2. तहसील छीपाबड़ोद |
| 32. जिला झालावाड़ | |
| 197. डग (अ.जा.) | 1. तहसील पचपहाड़ 2. तहसील गंगधार |
| 198. झालरापाटन | 1. तहसील पिड़ावा 2. तहसील झालरापाटन (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, झालरापाटन, नगर पालिका बोर्ड, झालरापाटन को सम्मिलित करते हुए (II) भू.अ.नि. वृत्, समराई (III) भू.अ.नि. वृत्, झालावाड़, (आंशिक) – (i) नगर पालिका बोर्ड, झालावाड़ (ii) पटवार मंडल दुर्गपुरा (iii) पटवार मंडल गिन्दोर (iv) पटवार मंडल कलमण्डी कलां (v) पटवार मंडल खानपुरिया (vi) पटवार मंडल सलोतिया |
| 199. खानपुर | 1. तहसील खानपुर 2. तहसील झालरापाटन (आंशिक) – (I) भू.अ.नि. वृत्, मण्डावर (II) भू.अ.नि. वृत्, रटलाई (III) भू.अ.नि. वृत्, सलावद (IV) भू.अ.नि. वृत्, बकानी (V) भू.अ.नि. वृत्, रीछवा (VI) भू.अ.नि. वृत्, झालावाड़ (आंशिक) – (i) पटवार मंडल गागरोन (ii) पटवार मंडल गोविन्दपुरा |

| | |
|-----------------|---|
| 200. मनोहर थाना | 1. तहसील मनोहर थाना 2. तहसील अकलेरा 3. तहसील झालरापाटन (आंशिक) - (I) भू.अ.नि. वृत्त, असनावर |
|-----------------|---|

तालिका-ख

लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका विस्तार

| क्रम संख्या एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम | लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार |
|---|---|
| 1. गंगानगर (अ.जा.) | 1-सादुलशहर, 2-गंगानगर, 3-करणपुर, 4-सूरतगढ़, 5-रायसिंहनगर (अ.जा.), 7-संगरिया, 8-हनुमानगढ़ एवं 9-पीलीबंगा (अ.जा.) |
| 2. बीकानेर (अ.जा.) | 6-अनूपगढ़ (अ.जा.), 12-खाजूवाला (अ.जा.), 13-बीकानेर पश्चिम, 14-बीकानेर पूर्व, 15-कोलायत, 16-लूणकरणसर, 17-डूंगरगढ़ एवं 18-नोखा |
| 3. चूरु | 10-नोहर, 11-भादरा, 19-सादुलपुर, 20-तारानगर, 21-सरदारशहर, 22-चूरु, 23-रतनगढ़ एवं 24-सुजानगढ़ (अ.जा.) |
| 4. झुन्झुनू | 25-पिलानी (अ.जा.), 26-सूरजगढ़, 27-झुन्झुनू, 28-मण्डावा, 29-नवलगढ़, 30-उदयपुरवाटी, 31-खेतड़ी एवं 32-फतेहपुर |
| 5. सीकर | 33-लक्ष्मणगढ़, 34-धोद (अ.जा.), 35-सीकर, 36-दांता रामगढ़, 37-खण्डेला, 38-नीम का थाना 39-श्रीमाधोपुर एवं 43-चोमू |
| 6. जयपुर ग्रामीण | 40-कोटपूतली, 41-विराटनगर, 42-शाहपुरा, 44-फुलेरा, 46-झोटवाड़ा, 47-आमेर, 48-जमवा रामगढ़ (अ.ज.जा.) एवं 63.बानसुर |
| 7. जयपुर | 49-हवा महल, 50-विद्याधर नगर, 51-सिविल लाइन्स, 52-किशन पोल, 53-आदर्श नगर, 54-मालवीय नगर, 55-सांगानेर एवं 56-बगरू (अ.जा.) |
| 8. अलवर | 59-तिजारा, 60-किशनगढ़ बास, 61-मुण्डावर, 62-बहरोड़, 65-अलवर ग्रामीण (अ.जा.), 66-अलवर शहर 67-रामगढ़, एवं 68-राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.) |
| 9. भरतपुर (अ.जा.) | 69-कठूमर (अ.जा.), 70-कामां, 71-नगर, 72-डीग-कुम्हेर, 73-भरतपुर, 74-नदबई, 75-वैर (अ.जा.) एवं 76-बयाना (अ.जा.) |
| 10. करौली-धौलपुर (अ.जा.) | 77-बसेड़ी (अ.जा.), 78-बाड़ी, 79-धौलपुर, 80-राजाखेड़ा, 81-टोडा भीम (अ.ज.जा.), 82-हिण्डौन (अ.जा.), 83-करौली एवं 84-सपोटरा (अ.ज.जा.) |

| | |
|-------------------------|--|
| 11. दौसा (अ.ज.जा.) | 57-बस्सी (अ.ज.जा.), 58-चाकसू (अ.जा.), 64-थानागाजी, 85-बांदीकुई, 86-महवा, 87-सिकराय (अ.जा.), 88-दौसा एवं 89-लालसोट (अ.ज.जा.) |
| 12. टोंक-सवाई माधोपुर | 90-गंगापुर, 91-बामनवास (अ.ज.जा.), 92-सवाई माधोपुर, 93-खण्डार (अ.जा.), 94-मालपुरा, 95-निवाई (अ.जा.), 96-टोंक एवं 97-देवली - उनियारा |
| 13. अजमेर | 45-दूदू (अ.जा.), 98-किशनगढ़, 99-पुष्कर, 100-अजमेर उत्तर, 101-अजमेर दक्षिण (अ.जा.), 102-नसीराबाद, 104-मसूदा एवं 105-केकड़ी |
| 14. नागौर | 106-लाडनू, 107-डीडवाना, 108-जायल (अ.जा.), 109-नागौर, 110-खीवसर 113-मकराना, 114-परबतसर एवं 115-नावा |
| 15. पाली | 117-सोजत (अ.जा.), 118-पाली, 119-मारवाड़ जंक्शन, 120-बाली, 121-सुमेरमुर, 125-ओसियां, 126-भोपालगढ़ (अ.जा.) एवं 131-बिलाड़ा (अ.जा.) |
| 16. जोधपुर | 122-फलौदी, 123-लोहावट, 124-शेरगढ़, 127-सरदारपुरा, 128-जोधपुर, 129-सूरसागर, 130-लुणी एवं 133-पोकरण |
| 17. बाड़मेर | 132-जैसलमेर, 134-शिव, 135-बाड़मेर, 136-बायतू, 137-पचपदरा, 138-सिवाना, 139-गुड़ा मालानी एवं 140-चौहटन (अ.जा.) |
| 18. जालोर | 141-आहोर, 142-जालोर (अ.जा.), 143-भीनमाल, 144-सांचोर, 145-रानीवाड़ा, 146-सिरोही, 147-पिण्डवाड़ा-आबू (अ.ज.जा.) एवं 148-रेवदर (अ.जा.) |
| 19. उदयपुर (अ.ज.जा.) | 149-गोगुन्दा (अ.ज.जा.), 150-झाडोल (अ.ज.जा.), 151-खेरवाड़ा (अ.ज.जा.), 152-उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.), 153-उदयपुर, 156-सलूम्बर (अ.ज.जा.), 157-धरियावद (अ.ज.जा.) एवं 159-आसपुर (अ.ज.जा.) |
| 20. बांसवाड़ा (अ.ज.जा.) | 158-डूंगरपुर (अ.ज.जा.), 160-सागवाड़ा (अ.ज.जा.), 161-चोरासी (अ.ज.जा.), 162-घाटोल (अ.ज.जा.), 163-गढ़ी (अ.ज.जा.), 164-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.), 165-बागीदोरा (अ.ज.जा.) एवं 166-कुशलगढ़ (अ.ज.जा.) |
| 21. चित्तौड़गढ़ | 154-मावली, 155-वल्लभनगर, 167-कपासन (अ.जा.), 168-बेगूं, 169-चित्तौड़गढ़, 170-निम्बाहेड़ा, 171-बड़ी सादड़ी एवं 172-प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.) |
| 22. राजसमन्द | 103-ब्यावर, 111-मेड़ता (अ.जा.), 112-डेगाना, 116-जैतारण, 173-भीम, 174-कुम्भलगढ़, 175-राजसमन्द एवं 176-नाथद्वारा |

| | |
|--------------------|---|
| 23. भीलवाड़ा | 177—आसीन्द, 178—माण्डल, 179—सहाड़ा, 180—भीलवाड़ा, 181—शाहपुरा, (अ.जा.), 182—जहाजपुर, 183—माण्डलगढ़ एवं 184—हिण्डोली |
| 24. कोटा | 185—केशोरायपाटन (अ.जा.), 186—बून्दी, 187—पीपल्दा, 188—सांगोद, 189—कोटा उत्तर, 190—कोटा दक्षिण, 191—लाडपुरा एवं 192—रामगंज मण्डी (अ.जा.) |
| 25. झालावाड़—बारां | 193—अंता, 194—किशनगंज (अ.ज.जा.), 195—बारां—अटरू (अ.जा.), 196—छबड़ा, 197—डग (अ.जा.), 198—झालरापाटन, 199—खानपुर एवं 200—मनोहर थाना |

नोट : इस सारणी — क के किसी जिला, तहसील, भूअ.नि.वृत्त, पटवार मण्डल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग के लिए किसी सदर्थ का मतलब उसके अन्तर्गत जिला, तहसील, भूअ.नि.वृत्त, पटवार मण्डल, नगर पालिका तथा वार्ड या अन्य प्रादेशिक प्रभाग फरवरी मास के 15 (पन्द्रहवें) दिन, 2004 को सम्मिलित क्षेत्र माने जाएंगे ।

ह/—

कुलदीप सिंह, अध्यक्ष

ह/—

एन. गोपालास्वामी, सदस्य

ह/—

इन्द्रजीत खन्ना, सदस्य

[सं. 282/राज/2005]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

DELIMITATION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2006

O. N. 4(E).—In pursuance of Sub-section (1) of Section 10 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the following Order made by the Delimitation Commission under Sub-section (2) of Section 9 read with Sub-section (2) of Section 4 of the Act, in respect of the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Rajasthan is hereby published.

ORDER NO. 16

WHEREAS, in pursuance of Sections 8 and 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), as amended by the Delimitation (Amendment) Act, 2003(3 of 2004), the Delimitation Commission has, by its Order No. 12 dated 8th August, 2005, published in the extraordinary issue of the Gazette of India and the Rajasthan State Gazette on 8th August, 2005, determined – (i) the total number of seats in the House of the People to be allocated to the State of Rajasthan as twenty five (25) of which, four(4) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and three(3) seats shall be reserved for the Scheduled Tribes, and (ii) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the State as two hundred(200) of which, thirty four(34) seats shall be reserved for the Scheduled Castes and twenty five(25) seats for the Scheduled Tribes; and

WHEREAS, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 5, read with Sub Section (1) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission associated with itself the Associate Members from the State with the proceedings for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State; and

WHEREAS, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 9 of the said Act, the Delimitation Commission published its proposals, along with the dissenting proposals of the Associate Members of the Commission who desired publication thereof, for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State on the basis of the relevant published figures of 2001 Census, in the extraordinary issue of the Gazette of India and in the Rajasthan State Gazette on 8th August, 2005, for inviting objections and suggestions in relation to the aforesaid proposals by 23rd August, 2005; and

WHEREAS, in pursuance of the said Sub-Section (2) of Section 9 of that Act, the Commission's Order No. 12 mentioned above and the above referred draft proposals of the Commission along with the dissenting proposals of the Associate Members were also published in the local newspapers on 8th August, 2005 and given further publicity through radio and television and other media of mass communication; and

WHEREAS, in pursuance of the said Sub-Section (2) of Section (9) of that Act, the Commission also issued a public Notice on 8th August, 2005 specifying the places and dates of its public sittings to consider all objections and suggestions; and

WHEREAS, in pursuance of the said Sub-Section (2) of Section 9 of that Act, the Commission held public sittings at Jodhpur on 21st & 22nd September, 2005, at Udaipur on 23rd September, 2005 and at Jaipur on 24th September, 2005 and heard the members of the public and afforded them full opportunity of making oral and written submissions, in addition to the written representations already sent, if any, to the Commission; and

WHEREAS, the Commission has considered all objections and suggestions made at the aforesaid public sittings and/or received by it otherwise, in relation to its said proposals, in the light of the relevant provisions of the Constitution and the said Act;

NOW THEREFORE, in pursuance of clause (d) of Sub-Section (2) of Section 9 read with Sub-Section (2) of Section 4 of the said Act, as amended, the Delimitation Commission hereby determines as follows:

1. The territorial Assembly Constituencies into which the State of Rajasthan shall be divided for the purpose of elections to the Legislative Assembly of the State and the extent of each such Constituency shall be as shown in Table-A.
2. The territorial Parliamentary Constituencies into which the State of Rajasthan shall be divided for the purpose of elections to the House of the People and the extent of each such Constituency shall be as shown in Table-B.
3. Where the name of a Constituency as shown in Table-A or Table-B is distinguished by the brackets and letters "(SC)" the seat in that Constituency is reserved for the Scheduled Castes.
4. Where the name of a Constituency as shown in Table-A or Table-B is distinguished by the brackets and letters "(ST)" the seat in that Constituency is reserved for the Scheduled Tribes.

TABLE - A
ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

| S. No. & Name of Assembly Constituency | Extent |
|---|--|
| 1-DISTRICT GANGANAGAR | |
| 1-Sadulshahar | 1. Tehsil Sadulshahar 2. Tehsil Ganganagar (Partly) (I) ILRC Mirzewala (II) ILRC Hindumalkot (III) ILRC Shivpur (IV) ILRC Ram Nagar excluding area of Municipal Council, Ganganagar (V) ILRC Chunawadh (VI) ILRC Ganganagar (Partly)- (i) PC Chak Maharaj Ka |
| 2-Ganganagar | Tehsil Ganganagar (Partly) - (I) ILRC Ganganagar including Municipal Council Ganganagar but excluding PC Chak Maharaj Ka (II) ILRC Burwali (III) ILRC Netewala |
| 3-Karanpur | 1. Tehsil Karanpur 2. Tehsil Padampur |
| 4-Suratgarh | 1. Tehsil Suratgarh 2. Tehsil Vijaynagar (Partly) - ILRC Jaitsar |
| 5-Raisinghnagar (SC) | 1. Tehsil Raisinghnagar 2. Tehsil Vijaynagar (Partly) - (I) ILRC Vijaynagar including Shri Vijaynagar Municipal Board (II) ILRC Kunplee (III) ILRC 40 GB (IV) ILRC 8STB, (V) ILRC 12GB 3. Tehsil Anupgarh (Partly) - (I) ILRC Salempura (II) ILRC Banda Colony |
| 6-Anupgarh (SC) | 1. Tehsil Gharsana 2. Tehsil Anupgarh excluding ILRC Salempura & ILRC Banda Colony |
| 2-DISTRICT HANUMANGARH | |
| 7-Sangaria | 1. Tehsil Sangaria 2. Tehsil Tibi |
| 8-Hanumangarh | 1. Tehsil Hanumangarh (Partly) - (I) ILRC Hanumangarh including Municipal Board Hanumangarh (II) ILRC Roranwali (III) ILRC Pucca Sarnan (IV) ILRC Fatehgarh (V) ILRC Lakhuwali (VI) ILRC Norangdesar |
| 9-Pilibanga (SC) | 1. Tehsil Pilibanga 2. Tehsil Rawatsar (Partly) - (I) ILRC Rawatsar including Municipal Board Rawatsar (II) ILRC Khoda (III) ILRC Gandheli 3. Tehsil Hanumangarh (Partly) - (I) ILRC Dabirathan |

| | |
|-----------------------------|---|
| 10 - Nohar | 1. Tehsil Nohar (Partly) - (I) ILRC Nohar including Municipal Board Nohar (II) ILRC Deidas (III) ILRC Gorkhana (IV) ILRC Phephana (V) ILRC Meghana (VI) ILRC Jabrasar, 2. Tehsil Rawatsar (Partly) - (I) ILRC Baramsar (II) ILRC Pailu |
| 11-Bhadra | 1. Tehsil Bhadra 2. Tehsil Nohar (Partly) - (I) ILRC Ramgarh |
| 3-DISTRICT BIKANER | |
| 12-Khajuwala (SC) | 1. Tehsil Khajuwala 2. Tehsil Poogal, 3. Tehsil Chhatargarh, 4. Tehsil Bikaner (Partly) - (I) ILRC Kanasar (II) ILRC Bikaner (Partly) - (I) PC Chak Garbi (Rural) (ii) PC Naibari (iii) PC Udasar |
| 13-Bikaner West | 1. Tehsil Bikaner (Partly) - (I) Municipal Council Bikaner (Partly) - Ward No. 1 to 4, 14 to 19, 21, 29 to 35, 44 to 49 and 53 to 55 (II) ILRC Bikaner (Partly) - (i) PC Karmisar (Rural) |
| 14-Bikaner East | 1. Tehsil Bikaner (Partly) - (I) Municipal Council Bikaner (Partly) - Ward No. 5 to 13, 20, 22 to 28, 36 to 43 and 50 to 52 (II) ILRC Bikaner (Partly) - (i) PC Bikaner (Rural) (ii) PC Gangasahar (Rural) |
| 15-Kolayat | 1. Tehsil Kolayat 2. Tehsil Bikaner (Partly) - (I) ILRC Deshnoke including Municipal Board Deshnoke |
| 16-Lunkaransar | 1. Tehsil Lunkaransar 2. Tehsil Bikaner (Partly) - (I) ILRC Jamsar (II) ILRC Napasar (III) ILRC Bikaner (Partly) - (i) PC Ridsmaisar Purohitan |
| 17-Dungargarh | 1. Tehsil Dungargarh 2. Tehsil Nokha (Partly) - (I) ILRC Kuchor Aathooni |
| 18-Nokha | 1. Tehsil Nokha excluding ILRC Kuchor Aathooni |
| 4-DISTRICT CHURU | |
| 19-Sadulpur | 1. Tehsil Rajgarh (Partly) - (I) ILRC Rajgarh including Municipal Board Rajgarh (II) ILRC Hamirawas Bara (III) ILRC-Ragha Chhoti (IV) ILRC-Sankhoo (V) ILRC-Chainpura Chhota (VI) ILRC-Sidhmukh |
| 20-Taranagar | 1. Tehsil Taranagar 2. Tehsil Rajgarh (Partly) - (I) ILRC Dadarewa (II) ILRC-Dokwa 3. Tehsil Sardarshahar (Partly) - (I) ILRC Ratoosar |
| 21-Sardarshahar | 1. Tehsil Sardarshahar excluding ILRC Ratoosar 2. Tehsil Ratangarh (Partly) - (I) ILRC Golsar |
| 22-Churu | 1. Tehsil Churu |
| 23-Ratangarh | 1. Tehsil Ratangarh excluding ILRC Golsar 2. Tehsil Sujangarh (Partly) - (I) ILRC Chhapar including Municipal Board Chhapar (II) ILRC Khuri |
| 24-Sujangarh (SC) | 1. Tehsil Sujangarh (Partly) - (I) ILRC Sujangarh including Municipal Board Sujangarh, (II) ILRC Jeeli (III) ILRC Salasar (IV) ILRC Bidasar including Municipal Board Bidasar (V) ILRC Lalgarh (VI) ILRC Tendesar |
| 5-DISTRICT JHUNJHUNU | |
| 25-Pilani (SC) | 1. Tehsil Chirawa (Partly) - (I) ILRC Pilani including Municipal Board Pilani and Municipal Board Vidhya Vihar (II) ILRC Chirawa including Municipal Board Chirawa (III) ILRC Mandrela (IV) ILRC Sultana (Partly) - (i) PC Ardawata (V) ILRC Surajgarh (Partly) - (i) PC Adooka (ii) PC Farat (iii) PC Sehi Kalan |
| 26-Surajgarh | 1. Tehsil Buhana 2. Tehsil Chirawa (Partly) - (I) ILRC Surajgarh (Partly) - (i) Surajgarh Municipal Board (ii) PC Baloda (iii) PC Berla (iv) PC Bhaothari (v) PC Dheengariya (vi) PC Jakhod (vii) PC Kakora (viii) PC Kidwana (ix) PC Lakhoo (x) PC Lotiya (xi) PC Mahpaiwas |

| | |
|--------------------------|---|
| 27-Jhunjhunu | 1. Tehsil Jhunjhunu (Partly) - (I) ILRC Jhunjhunu including Municipal Board Jhunjhunu and Municipal Board Bagar (II) ILRC Kulod Kalan 2. Tehsil Chirawa (Partly) - ILRC Sultana (Partly) - (i) PC Chanana (ii) PC Solana (iii) PC Kishorepura (iv) PC Kithana (v) PC Sultana (vi) PC Sari |
| 28-Mandawa | 1. Tehsil Jhunjhunu (Partly) - (I) ILRC Mandawa including Municipal Board Mandawa (II) ILRC Bisau including Municipal Board Bisau (III) ILRC Malsisar (IV) ILRC Rampura |
| 29-Nawalgarh | 1. Tehsil Nawalgarh |
| 30-Udaipurwati | 1. Tehsil Udaipurwati |
| 31-Khetri | 1. Tehsil Khetri |
| 6-DISTRICT SIKAR | |
| 32-Fatehpur | 1. Tehsil Fatehpur |
| 33-Lachhmangarh | 1. Tehsil Lachhmangarh |
| 34-Dhod (SC) | 1. Tehsil Sikar (Partly) - (I) ILRC-Dhod (II) ILRC Sihot Bari (III) ILRC Sihot Chhoti (IV) ILRC Doojod (V) ILRC Dadiya (Partly) (i) PC Gothra Bhokran (ii) PC Kudan (iii) PC Raseedpura 2. Tehsil Danta Ramgarh (Partly) - (I) ILRC Losal (Partly) - (i) Municipal Board Losal (ii) PC Bhagatpura (iii) PC Bheema (iv) PC Jana (v) PC Sangalia (vi) PC Khod |
| 35-Sikar | 1. Tehsil Sikar (Partly) - (I) ILRC Sikar including Municipal Council Sikar (II) ILRC Piprali (III) ILRC Dadiya (Partly) - (i) PC Dadiya (ii) PC Gothra Beri (iii) PC Tarpura (iv) PC Koleera |
| 36-Danta Ramgarh | Tehsil Danta Ramgarh excluding Municipal Board Losal, PC Bhagatpura, PC Bheema, PC Jana, PC Sangalia and PC Khod of ILRC Losal |
| 37-Khandela | Tehsil Srimadhapur (Partly) - (I) ILRC Khandela including Municipal Board Khandela (II) ILRC Jajod (III) ILRC Kanwat (IV) ILRC Reengus including Municipal Board Reengus (V) ILRC Srimadhapur (Partly) - (i) PC Bassi (ii) PC Nimera (iii) PC Ralawata |
| 38-Neema Ka Thana | Tehsil Neema Ka Thana (Partly) - (I) ILRC Neema Ka Thana including Municipal Board Neema Ka Thana (II) ILRC Patan (III) ILRC Chala (IV) ILRC Dabla |
| 39-Srimadhapur | 1. Tehsil Srimadhapur (Partly) - (I) ILRC Mau (II) ILRC Ajitgarh (III) ILRC Srimadhapur (Partly) - (i) Municipal Board Srimadhapur (ii) PC Srimadhapur Rural (iii) PC Hanspur (iv) PC Kotri Shimarla (v) PC Jorawar Nagar 2. Tehsil Neema Ka Thana (Partly) - (I) ILRC Sanwalpura Tanwaran |
| 7-DISTRICT JAIPUR | |
| 40-Kotputli | Tehsil Kotputli (Partly) - (I) ILRC Kotputli including Municipal Board Kotputli (II) ILRC Natheda (III) ILRC Paniyala (IV) ILRC Dantli |
| 41-Viratnagar | 1. Tehsil Viratnagar 2. Tehsil Kotputli (Partly) - (I) ILRC Paota 3. Tehsil Shahpura (Partly) - (I) ILRC Shahpura (Partly) - (i) PC Chhapra Khurd (ii) PC Nathawala (iii) PC Rampura (iv) PC Saiwar |
| 42-Shahpura | 1. Tehsil Shahpura excluding PC Chhapra Khurd, PC Nathawala, PC Rampura & PC Saiwar of ILRC Shahpura 2. Tehsil Chomu (Partly) - (I) ILRC Khejroli (Partly) - (i) PC Amarpura (ii) PC Khejroli (iii) PC Nangal Koju (iv) PC Niwana (v) PC Tigariya (vi) PC Nangal Bharda |
| 43-Chomu | 1. Tehsil Chomu (Partly) - (I) ILRC Chomu including Municipal Board Chomu (II) ILRC Govindgarh (III) ILRC Kaladera (IV) ILRC Khejroli (Partly) - (i) PC Singod Kalan (ii) PC Singod Khurd (iii) PC Itawa Bhopji (iv) PC Udaipuriya |
| 44-Phulera | 1. Tehsil Phulera (Partly) - (I) ILRC Sambhar including Municipal Board Sambhar and Municipal Board Phulera (II) ILRC Renwal |

| | |
|-------------------------|---|
| | including Municipal Board Kishangarh Renwal (III) ILRC Bhainslana (IV) ILRC Narayana (V) ILRC Karansar (Partly) - (i) PC Doongari Khurd (ii) PC Harsoli (iii) PC Kherimillak (iv) PC Ramjipura Kalan |
| 45-Dudu (SC) | 1. Tehsil Mauzmadabad 2. Tehsil Phagi (Partly) - (I) ILRC Phagi (II) ILRC Chouru (III) ILRC Mandor (IV) ILRC Nimera |
| 46-Jhotwara | 1. Municipal Corporation Jaipur (Partly) - Ward No. 2 and 3, 2. Rural area of tehsil Jaipur excluding PC Jamdoli and PC Sumel of ILRC Jaipur East 3. Tehsil Phulera (Partly) - (I) ILRC Jobner including Municipal Board Jobner (II) ILRC Karansar (Partly) - (i) PC Karansar (ii) PC Bhainsawa (iii) PC Doongari Kalan (iv) PC Hingoniya (v) PC Jorpura Sundariyawas |
| 47-Amber | 1. Tehsil Amber including Ward No. 53 of Municipal Corporation, Jaipur |
| 48-Jamwa Ramgarh (ST) | 1. Tehsil Jamwa Ramgarh |
| 49-Hawa Mahal | Municipal Corporation, Jaipur (Partly) - Ward No. 51, 52, 54, 55, 58, 59 and 63 to 65 |
| 50-Vidhyadhar Nagar | Municipal Corporation, Jaipur (Partly) - Ward No. 1, 8 to 10 and 68 to 70 |
| 51-Civil Lines | Municipal Corporation, Jaipur (Partly) - Ward No. 4 to 7, 11, 17, 36, 37, 66 and 67 |
| 52-Kishan Pole | Municipal Corporation, Jaipur (Partly) - Ward No. 38 to 43, 45, 50, 56, 57 and 60 to 62 |
| 53-Adarsh Nagar | Municipal Corporation Jaipur (Partly) - Ward No. 29, 30, 32 to 34, 44 and 46 to 49, Tehsil Jaipur (Partly) - (I) ILRC Jaipur East (Partly) - (i) PC Sumel (ii) PC Jamdoli |
| 54-Malviya Nagar | Municipal Corporation, Jaipur (Partly) - Ward No. 15, 16, 18 to 21, 25 to 27, 31 and 35 |
| 55-Sanganer | Municipal Corporation Jaipur (Partly) - Ward No. 12 to 14, 22 and 23 |
| 56-Bagru (SC) | 1. Tehsil Sanganer excluding urban area but including Municipal Board Bagru 2. Municipal Corporation, Jaipur - (Partly) Ward No. 24 and 28 |
| 57-Bassi (ST) | 1. Tehsil Bassi, 2. Tehsil Chaksu (Partly) - (I) ILRC Kotkhawada (Partly) - (i) PC Mahadeopura (ii) PC Rupaheri Kalan (iii) PC Narpatpura (iv) PC Rupaheri Khurd |
| 58-Chaksu (SC) | 1. Tehsil Chaksu excluding PC Mahadeopura, PC Rupaheri Kalan, PC Narpatpura and PC Rupaheri Khurd of ILRC Kotkhawada, 2. Tehsil Phagi (Partly) - (I) ILRC Chittora (II) ILRC Madhoraipura (III) ILRC Renwal |
| 8-DISTRICT ALWAR | |
| 59-Tijara | 1. Tehsil Tijara |
| 60-Kishangarh Bas | 1. Tehsil Kishangarh Bas 2. Tehsil Kotkasim |
| 61-Mundawar | 1. Tehsil Mundawar 2. Tehsil Behror (Partly) - (I) ILRC Neemrana |
| 62-Behror | 1. Tehsil Behror (Partly) - (I) ILRC Behror including Municipal Board Behror (II) ILRC Bardod (III) ILRC Mandhan (IV) ILRC Gandala |
| 63-Bansur | 1. Tehsil Bansur 2. Tehsil Thanagazi (Partly) - (I) ILRC Narainpur |
| 64-Thanagazi | 1. Tehsil Thanagazi excluding ILRC Narainpur 2. Tehsil Rajgarh (Partly) - (I) ILRC Rajpur Bara (II) ILRC Tahla (III) ILRC Khoh (IV) ILRC Rajgarh (Partly) - (i) PC Dubbi (ii) PC Karoth (iii) PC Nayagaon Bolka (iv) PC Dhamred (v) PC Thanarajaji |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 65-Alwar Rural (SC) | Tehsil Alwar excluding Municipal Council Alwar, PC Alwar (Rural), PC Bhoogor and PC Diwakari of ILRC Alwar | |
| 66-Alwar Urban | 1. Tehsil Alwar (Partly) - (I) ILRC Alwar (Partly) - (I) Municipal Council Alwar (ii) PC Alwar (Rural) (iii) PC Bhoogor (iv) PC Diwakari. | |
| 67-Ramgarh | 1. Tehsil Ramgarh 2. Tehsil Laxmangarh (Partly) - (I) ILRC Govindgarh (II) ILRC Baroda Meo (III) ILRC Moliya (Partly) - (I) PC Dongari (ii) PC Semla Khurd (iii) PC Bhalnsrawat (iv) PC Phahri | |
| 68-Rajgarh-Laxmangarh (ST) | 1. Tehsil Rajgarh (Partly) - (I) ILRC Machari (II) ILRC Pinan (III) ILRC Reni (IV) ILRC Dhigawara (V) ILRC Rajgarh (Partly) - (I) Municipal Board Rajgarh (ii) PC Rajgarh-A (iii) PC Rajgarh (B) (iv) PC Alei 2. Tehsil Laxmangarh (Partly) - (I) ILRC Laxmangarh (II) ILRC Bichgaon (III) ILRC Mojpur | |
| 69-Kathumar (SC) | 1. Tehsil Kathumar 2. Tehsil Laxmangarh (Partly) - (I) ILRC Khudiyana (II) ILRC Moliya (Partly) - (i) PC Moliya (ii) PC Badka (iii) PC Itera | |
| 9-DISTRICT BHARATPUR | | |
| 70-Kaman | 1. Tehsil Kaman 2. Tehsil Pahari | |
| 71-Nagar | 1. Tehsil Nagar 2. Tehsil Deeg (Partly) - (I) ILRC Khoh (II) ILRC Pasta (III) ILRC Bedham (IV) ILRC Januthar | |
| 72-Deeg-Kumher | 1. Tehsil Kumher 2. Tehsil Deeg (Partly) - (I) ILRC Deeg including Municipal Board Deeg (II) ILRC Kasot (III) ILRC Baroli Chauth (IV) ILRC Sinsini | |
| 73-Bharatpur | Tehsil Bharatpur (Partly) - (I) ILRC Bharatpur including Municipal Council Bharatpur (II) ILRC Peepla (III) ILRC Chiksana (IV) ILRC Jaghina | |
| 74-Nadbai | 1. Tehsil Nadbai 2. Tehsil Bharatpur (Partly) - (I) ILRC Sewar excluding area of Municipal Council, Bharatpur (II) ILRC Aghapur 3. Tehsil Rupbas (Partly) - (I) ILRC Khanuwa (II) ILRC Uchchain | |
| 75-Weir (SC) | 1. Tehsil Weir 2. Tehsil Bayana (Partly) - (I) ILRC Farso (II) ILRC Khareri | |
| 76-Bayana (SC) | 1. Tehsil Bayana (Partly) - (I) ILRC Bayana including Municipal Board Bayana (II) ILRC Samogar (III) ILRC Mahmudpur (IV) ILRC Milakpur 2. Tehsil Rupbas (Partly) - (I) ILRC Rupbas (II) ILRC Khansurjapur (III) ILRC Rudawal | |
| 10-DISTRICT DHOLPUR | | |
| 77-Baseri (SC) | 1. Tehsil Baseri 2. Tehsil Bari (Partly) - (I) ILRC Umreh | |
| 78-Bari | 1. Tehsil Bari (Partly) - (I) ILRC Kasbabari including Municipal Board Bari (II) ILRC Basai Dang (III) ILRC Talab Shahi (IV) ILRC Kanchanpur 2. Tehsil Saipau (Partly) - (I) ILRC Saipau (II) ILRC Donari (III) ILRC Basai Nawab | |
| 79-Dholpur | 1. Tehsil Dholpur (Partly) - (I) ILRC Dholpur including Municipal Board Dholpur (II) ILRC Jatoli (III) ILRC Pachgaon 2. Tehsil Saipau (Partly) - (I) ILRC Kareempur (II) ILRC Kolari | |
| 80-Rajakhera | 1. Tehsil Rajakhera 2. Tehsil Dholpur (Partly) - (I) ILRC Marhabhau (II) ILRC Maniyan | |
| 11-DISTRICT KARALI | | |
| 81-Todabhim (ST) | 1. Tehsil Nadoti 2. Tehsil Todabhim (Partly) - (I) ILRC Todabhim including Municipal Board Todabhim (II) ILRC Kamalpura (III) ILRC Kariri (IV) ILRC Padampura (V) ILRC Nangal Sherpur (VI) ILRC Balghat | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 82-Hindaun (SC) | 1. Tehsil Hindaun (Partly) - (I) ILRC Hindaun including Municipal Board Hindaun (II) ILRC Shri Mahaveerji (III) ILRC Bargawan (IV) ILRC Mahoo Ibrahimpur (V) ILRC Suroth 2. Tehsil Todabhim (Partly) - (I) ILRC Mahamadpur |
| 83-Karauli | 1. Tehsil Karauli (Partly) - (I) ILRC Karauli including Municipal Board Karauli (II) ILRC Chainpur (III) ILRC Gunesra (IV) ILRC Kheriya (V) ILRC Masalpur 2. Tehsil Hindaun (Partly) - (I) ILRC Khera (II) ILRC Sherpur |
| 84-Sapotra (ST) | 1. Tehsil Sapotra 2. Tehsil Mandrail 3. Tehsil Karauli (Partly) - (I) ILRC Maholi (II) ILRC Kailadevi |
| 12-DISTRICT DAUSA | |
| 85-Bandikui | 1. Tehsil Baswa (Partly) - (I) ILRC Bandikui including Municipal Board Bandikui (II) ILRC Baswa (III) ILRC Badiyal Kalan (IV) ILRC Gurha Katla (V) ILRC Gurhaliya (VI) ILRC Biwai |
| 86-Mahuwa | 1. Tehsil Mahuwa 2. Tehsil Baswa (Partly) - (I) ILRC Baijupara |
| 87-Sikrai (SC) | 1. Tehsil Sikrai 2. Tehsil Dausa (Partly) - (I) ILRC Alooda (II) ILRC Bhandarej |
| 88-Dausa | 1. Tehsil Dausa (Partly) - (I) ILRC Dausa including Municipal Board Dausa (II) ILRC Jasota (III) ILRC Kundal (IV) ILRC Lawan (V) ILRC Sainthal (VI) ILRC Baniyana (VII) ILRC Nangal Rajawatan |
| 89-Lalsot (ST) | 1. Tehsil Lalsot |
| 13-DISTRICT SAWAI MADHOPUR | |
| 90-Gangapur | 1. Tehsil Gangapur |
| 91-Bamanwas (ST) | 1. Tehsil Bamanwas 2. Tehsil Bonli |
| 92-Sawai Madhopur | 1. Tehsil Malarna Dungar 2. Tehsil Sawai Madhopur (Partly) - (I) ILRC Sawai Madhopur including Municipal Board Sawai Madhopur (II) ILRC Seloo (III) ILRC Soorwal (IV) ILRC Kundera |
| 93-Khandar (SC) | 1. Tehsil Khandar 2. Tehsil Choth Ka Barwara 3. Tehsil Sawai Madhopur (Partly) - (I) ILRC Kustala (II) ILRC Phalaudi (III) ILRC Rawajana Chaur |
| 14-DISTRICT TONK | |
| 94-Malpura | 1. Tehsil Malpura 2. Tehsil Tadaraisingh (Partly) - (I) ILRC Tadaraisingh including Municipal Board Tadaraisingh (II) ILRC Datob (III) ILRC Mor |
| 95-Niwai (SC) | 1. Tehsil Niwai 2. Tehsil Peeplu |
| 96-Tonk | 1. Tehsil Tonk 2. Tehsil Tadaraisingh (Partly) - (I) ILRC Khareda (II) ILRC Lamba Kalan |
| 97-Deoli-Unlara | 1. Tehsil Deoli 2. Tehsil Unlara |
| 15-DISTRICT AJMER | |
| 98-Kishangarh | 1. Tehsil Kishangarh (Partly) - (I) ILRC Kishangarh including Municipal Board Kishangarh (II) ILRC Harmara (III) ILRC Sironj (IV) ILRC Akodiya (V) ILRC Arain (VI) ILRC Bandar Seendri (VII) ILRC Lamba (VIII) ILRC Barna (IX) ILRC Ralawata 2. Tehsil Sarwar (Partly) - (I) ILRC Dabrela (II) ILRC Borada |
| 99-Pushkar | 1. Tehsil Ajmer excluding area of Municipal Council Ajmer and ILRC Ajmer - III 2. Tehsil Kishangarh (Partly) - (I) ILRC Karkeri (II) ILRC Kotri (III) ILRC Roopangarh |
| 100-Ajmer North | 1. Tehsil Ajmer (Partly) - (I) Ajmer Municipal Council (Partly) - Ward No. 1 to 5, 16, 17, 19 to 32 and 49 to 55 including Cantonment Board, Ajmer, (II) ILRC Ajmer -III |

| | |
|----------------------------|---|
| 101-Ajmer South (SC) | 1. Tehsil Ajmer (Partly) (I) Ajmer Municipal Council (Partly) - Ward No. 6 to 15, 18 and 33 to 48 |
| 102-Nasirabad | 1. Tehsil Nasirabad 2. Tehsil Pisangan |
| 103-Beawar | 1. Tehsil Beawar |
| 104-Masuda | 1. Tehsil Masuda 2. Tehsil Bhinay |
| 105-Kekri | 1. Tehsil Kekri 2. Tehsil Sarwar (Partly) - (I) ILRC Sarwar including Municipal Board Sarwar (II) ILRC Ajgara (III) ILRC Hingoniya (IV) ILRC Sapala (V) ILRC Fatehgarh (VI) ILRC Goyla (VII) ILRC Tantoti |
| 16-DISTRICT NAGOUR | |
| 106-Ladnun | 1. Tehsil Ladnun 2. Tehsil Deedwana (Partly) - (I) ILRC Noowa |
| 107-Deedwana | 1. Tehsil Deedwana (Partly) - (I) ILRC Deedwana including Municipal Board Deedwana (II) ILRC Khunkhuna (III) ILRC Molasar (IV) ILRC Khatu Khurd |
| 108-Jayal (SC) | 1. Tehsil Jayal 2. Tehsil Nagaur (Partly) - (I) ILRC Jodhiyasi |
| 109-Nagaur | 1. Tehsil Nagaur (Partly) - (I) ILRC Nagaur including Municipal Board Nagaur (II) ILRC Alay (III) ILRC Mundwa including Municipal Board Mundwa (IV) ILRC Kumari |
| 110-Khinwsar | 1. Tehsil Khinwsar 2. Tehsil Nagaur (Partly) - (I) ILRC Kharnal (II) ILRC Sankhwas (III) ILRC Khajwana including Municipal Board Kuchera 3. Tehsil Merta (Partly) - (I) ILRC Nokha Chandawatan |
| 111-Merta (SC) | 1. Tehsil Merta (Partly) - (I) ILRC Merta including Municipal Board Merta City (II) ILRC Rihan Bari (III) ILRC Padukalan (IV) ILRC Gotan (V) ILRC Jasnagar (VI) ILRC Gagrana (VII) ILRC Merta Road (Phalodi) |
| 112-Degana | 1. Tehsil Degana |
| 113-Makrana | 1. Tehsil Makrana |
| 114-Parbatsar | 1. Tehsil Parbatsar 2. Tehsil Nawan (Partly) - (I) ILRC Meethari (II) ILRC Kuchaman City (Partly) - (i) PC Anandpura (ii) PC Rasal (iii) PC Rooppura |
| 115-Nawan | 1. Tehsil Nawan (Partly) - (I) ILRC Nawan including Municipal Board Nawan (II) ILRC Chitawa (III) ILRC Loonwa (IV) ILRC Maroth (V) ILRC Kuchaman City (Partly) - (i) Municipal Board Kuchaman City (ii) PC Bhanwata (iii) PC Heerani (iv) PC Jiliya (v) PC Panchawa (vi) PC Parewadi (vii) PC Sabalpura |
| 17-DISTRICT PALI | |
| 116-Jaitaran | 1. Tehsil Jaitaran 2. Tehsil Raipur (Partly) - (I) ILRC Kot Kurana (II) ILRC Babra (III) ILRC Sendra (IV) ILRC Raipur (Partly) - (i) PC Bar (ii) PC Deepawas |
| 117-Sojat (SC) | 1. Tehsil Sojat 2. Tehsil Raipur (Partly) - (I) ILRC Raipur excluding PC Bar and PC Deepawas (II) ILRC Pipliya Kalan |
| 118-Pali | 1. Tehsil Pali (Partly) - (I) Municipal Council Pali 2. Tehsil Rohat |
| 119-Marwar Junction | 1. Tehsil Marwar Junction 2. Tehsil Desuri (Partly) - (I) ILRC Khiwara (II) ILRC Magar Talav (III) ILRC Rani including Municipal Board Rani Khurd |
| 120-Bali | 1. Tehsil Bali 2. Tehsil Desuri (Partly) - (I) ILRC Desuri including Municipal Board Sadri (II) ILRC Nadol |
| 121-Sumerpur | 1. Tehsil Sumerpur 2. Tehsil Pali excluding area of Municipal Council Pali |
| 18-DISTRICT JODHPUR | |
| 122-Phalodi | 1. Tehsil Phalodi (Partly) - (I) ILRC Phalodi including Municipal Board Phalodi (II) ILRC Bap (III) ILRC Aau (Partly) - (i) PC Bheenyasar (ii) PC Bhojasar (iii) PC Boongdi (iv) PC Champasar (v) PC Ghantiyali (vi) PC Jaisala (vii) PC Pariyal (viii) PC Kelansar |

| | |
|------------------------------|---|
| 123-Lohawat | 1. Tehsil Phalodi (Partly) - (I) ILRC Lohawat (II) ILRC Aau (Partly) - (I) PC Aau (ii) PC Chadi (iii) PC Ishru (iv) PC Ridmalsar 2. Tehsil Osian (Partly) - (I) ILRC Bapini 3. Tehsil Shergarh (Partly) - (I) ILRC Setrawa |
| 124-Shergarh | 1. Tehsil Shergarh (Partly) - (I) ILRC Shergarh (II) ILRC Solankiya Tala (III) ILRC Balesar (IV) ILRC Chamu |
| 125-Osian | 1. Tehsil Osian (Partly) - (I) ILRC Osian (II) ILRC Mathaniya (III) ILRC Tinwari (IV) ILRC Cheral |
| 126-Bhopalgarh (SC) | 1. Tehsil Bhopalgarh 2. Tehsil Jodhpur (Partly) - (I) ILRC Jajiwai Kalan |
| 127-Sardarpura | 1. Tehsil Jodhpur (Partly) - (I) Jodhpur Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 32 to 34, 36, 38, 39 and 48 to 59 |
| 128-Jodhpur | 1. Tehsil Jodhpur (Partly) - Jodhpur Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 19 to 31, 35, 37 and 40 to 47 |
| 129-Soorsagar | 1. Tehsil Jodhpur (Partly) - Jodhpur Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 1 to 18 and 60 |
| 130-Luni | 1. Tehsil Luni 2. Tehsil Jodhpur (Partly) - (I) ILRC Keroo (II) ILRC Mendor (III) ILRC Jodhpur (Partly) - (I) PC Bagan (ii) PC Nandra Kalan (III) PC Jhalamand (iv) PC Pal |
| 131-Bilara (SC) | 1. Tehsil Bilara 2. Tehsil Jodhpur (Partly) - (I) ILRC Bisalpur (II) ILRC Dangiyawas |
| 19-DISTRICT JAISALMER | |
| 132-Jaisalmer | 1. Tehsil Jaisalmer 2. Tehsil Fatehgarh |
| 133-Pokaran | 1. Tehsil Pokaran |
| 20-DISTRICT BARMER | |
| 134-Sheo | 1. Tehsil Sheo 2. Tehsil Ramsar 3. Tehsil Chohtan (Partly) - (I) ILRC Bijrar |
| 135-Barmer | 1. Tehsil Barmer |
| 136-Baytoo | 1. Tehsil Baytoo 2. Tehsil Pachpadra (Partly) - (I) ILRC Patodi |
| 137-Pachpadra | Tehsil Pachpadra (Partly) - (I) ILRC Pachpadra (II) ILRC Jasol including Municipal Board Balotra (III) ILRC Kalyanpur (IV) ILRC Tilwara (V) ILRC Thob |
| 138-Siwana | 1. Tehsil Siwana 2. Tehsil Gudha Malani (Partly) - (I) ILRC Sindhari |
| 139-Gudha Malani | 1. Tehsil Gudha Malani excluding ILRC Sindhari |
| 140-Chohtan (SC) | 1. Tehsil Chohtan excluding ILRC Bijrar |
| 21-DISTRICT JALORE | |
| 141-Ahore | 1. Tehsil Ahore 2. Tehsil Jalore (Partly) - (I) ILRC Bagra |
| 142-Jalore (SC) | 1. Tehsil Sayla 2. Tehsil Jalore (Partly) - (I) ILRC Jalore including Municipal Board Jalore (II) ILRC Bakra (III) ILRC Mandwala |
| 143-Bhinmal | 1. Tehsil Bagora 2. Tehsil Bhinmal (Partly) - (I) ILRC Bharoori (II) ILRC Daspan (III) ILRC Modra (IV) ILRC Ramseen (V) ILRC Bhinmal (Partly) - (i) Municipal Board Bhinmal (ii) PC Bhagalbhim (iii) PC Gajipura (iv) PC Sindhara (v) PC Nimbawas (vi) PC Nimbora (vii) PC Dantiwas (viii) PC Phagotra (ix) PC Punasa (x) PC Thobau |
| 144-Sanchore | 1. Tehsil Sanchore (Partly) - (I) ILRC Sanchore including Municipal Board Sanchore (II) ILRC Chitalwana (III) ILRC Jhab (IV) ILRC Sarwana (V) ILRC Surachand (VI) ILRC Arnay |
| 145-Raniwara | 1. Tehsil Raniwara 2. Tehsil Sanchore (Partly) - (I) ILRC Sarnau 3. Tehsil Bhinmal (Partly) - (I) ILRC Jaswantpura (II) ILRC Bhinmai (Partly) - (I) PC Pawli (ii) PC Sawidar |

| 22-DISTRICT SIROHI | |
|------------------------------|--|
| 146-Sirohi | 1. Tehsil Sirohi 2. Tehsil Sheoganj |
| 147-Pindwara Abu (ST) | 1. Tehsil Pindwara 2. Tehsil Abu Road (Partly) - (I) ILRC Mount Abu (Partly) - (i) Mount Abu Municipal Board (II) PC Oriya (II) ILRC Kiwarli |
| 148-Reodar (SC) | 1. Tehsil Reodar 2. Tehsil Abu Road (Partly) - (I) ILRC Abu Road including Municipal Board Abu Road (II) ILRC Mungthala (III) ILRC Mount Abu (Partly) - (i) PC Manpur (ii) PC Morthala |
| 23-DISTRICT UDAIPUR | |
| 149-Gogunda (ST) | 1. Tehsil Gogunda 2. Tehsil Kotra (Partly) - (I) ILRC Malwa ka Chora (II) ILRC Was 3. Tehsil Girwa (Partly) - (I) ILRC Iswal (II) ILRC Badgaon (Partly) - (i) PC Badgaon (II) PC Madar (iii) PC Thoor (iv) PC Lakhawall |
| 150-Jhadol (ST) | 1. Tehsil Jhadol 2. Tehsil Kotra (Partly) - (I) ILRC Kotra (II) ILRC Bikanri |
| 151-Kherwara (ST) | 1. Tehsil Kherwara 2. Tehsil Sarada (Partly) - (I) ILRC Semari |
| 152-Udaipur Rural (ST) | 1. Tehsil Girwa (Partly) - (I) Udaipur Municipal Council (Partly) - Ward No. 6 to 9, 24 to 27 and 39 (II) ILRC Baropal (III) ILRC Bholyon ki Pancholi (IV) ILRC Nai (V) ILRC City (Partly) - (i) PC Savina (ii) PC Shobhagpura (iii) PC Teetardi (iv) PC Goverdhan Villas (v) PC Dheekli (vi) PC Madari Purohitan (vii) PC Bhuwana |
| 153-Udaipur | 1. Tehsil Girwa (Partly) (I) Udaipur Municipal Council (Partly) - Ward No. 1 to 5, 10 to 23, 28 to 38 and 40 to 50 |
| 154-Mavli | 1. Tehsil Mavli 2. Tehsil Girwa (Partly) - (I) ILRC Badgaon (Partly) - (i) PC Bedla (ii) PC Chirwa (iii) PC Kailashpuri (iv) PC Sapetiya (II) ILRC Debari (Partly) - (i) PC Bhensda Kalan (ii) PC Bhalon ka Gudha (iii) PC Debari (iv) PC Lakadwas (v) PC Sakroda |
| 155-Vallabhnagar | 1. Tehsil Vallabhnagar 2. Tehsil Girwa (Partly) - (I) ILRC Bambora (II) ILRC Kurabad (III) ILRC Debari (Partly) - (i) PC Sheeshwi |
| 156-Salumber (ST) | 1. Tehsil Salumber (Partly) - (I) ILRC Salumber including Municipal Board Salumber (II) ILRC Baroda (III) ILRC Kharka 2. Tehsil Sarada (Partly) - (I) ILRC Sarada (II) ILRC Jaisamand (III) ILRC Palodara (IV) ILRC Sallara |
| 157-Dhariawad (ST) | 1. Tehsil Dhariawad 2. Tehsil Salumber (Partly) - (I) ILRC Jhallara (II) ILRC Bhabrana |
| 24-DISTRICT DUNGARPUR | |
| 158-Dungarpur (ST) | 1. Tehsil Dungarpur (Partly) - (I) ILRC Dungarpur including Municipal Board Dungarpur (II) ILRC Bichhiwara (III) ILRC Dewal (IV) ILRC Thana (V) ILRC Genji (Partly) - (i) PC Mada (ii) PC Bhehana (iii) PC Galandar (iv) PC Gamri Ahara (v) PC Mewara (vi) PC Rampur Mewara |
| 159-Aspur (ST) | 1. Tehsil Aspuri 2. Tehsil Dungarpur (Partly) - (I) ILRC Antri (II) ILRC Falaj |
| 160-Sagwara (ST) | 1. Tehsil Sagwara |
| 161-Chorasi (ST) | 1. Tehsil Simalwara 2. Tehsil Dungarpur (Partly) - (I) ILRC Genji (Partly) - (i) PC Renta (ii) PC Vikas Nagar (iii) PC Genji (iv) PC Mahuri |

| 25-DISTRICT BANSWARA | |
|--------------------------------|--|
| 162-Ghatol (ST) | 1. Tehsil Ghatol |
| 163-Garhi (ST) | 1. Tehsil Garhi 2. Tehsil Banswara (Partly) - (I) ILRC Talwara |
| 164-Banswara (ST) | 1. Tehsil Banswara excluding ILRC Talwara |
| 165-Bagidora (ST) | 1. Tehsil Bagidora |
| 166-Kushalgarh (ST) | 1. Tehsil Kushalgarh |
| 26-DISTRICT CHITTORGARH | |
| 167-Kapasan (SC) | 1. Tehsil Kapasan 2. Tehsil Rashmi 3. Tehsil Bhadesar (Partly) - (I) ILRC Bansen (II) ILRC Bhadsora |
| 168-Begun | 1. Tehsil Begun 2. Tehsil Rawatbhata 3. Tehsil Gangrar excluding area of Municipal Board Chittorgarh |
| 169-Chittorgarh | 1. Tehsil Chittorgarh 2. Tehsil Gangrar (Partly) - Area of Municipal Board Chittorgarh 3. Tehsil Bhadesar (Partly) - (I) ILRC Bhadesar |
| 170-Nimbahera | 1. Tehsil Nimbahera 2. Tehsil Chhoti Sadri |
| 171-Bari Sadri | 1. Tehsil Bari Sadri 2. Tehsil Dungla 3. Tehsil Bhadesar (Partly) - (I) ILRC Asawara 4. Tehsil Pratapgarh (Partly) - (I) ILRC Deogarh (II) ILRC Dhamotar |
| 172-Pratapgarh (ST) | 1. Tehsil Arnod 2. Tehsil Pratapgarh (Partly) - (I) ILRC Pratapgarh including Municipal Board Pratapgarh (II) ILRC Panmori (III) ILRC Awaleswar (IV) ILRC Suhagpura |
| 27-DISTRICT RAJSAMAND | |
| 173 - Bhim | 1. Tehsil Bhim 2. Tehsil Deogarh |
| 174-Kumbhalgarh | 1. Tehsil Kumbhalgarh 2. Tehsil Amet |
| 175 - Rajsamand | 1. Tehsil Rajsamand 2. Tehsil Railmagra (Partly) - (I) ILRC Kuraj (II) ILRC Gilund |
| 176 - Nathdwara | 1. Tehsil Nathdwara 2. Tehsil Railmagra (Partly) - (I) ILRC Railmagra (II) ILRC Banedian |
| 28-DISTRICT BHILWARA | |
| 177-Asind | 1. Tehsil Asind 2. Tehsil Hurda |
| 178-Mandal | 1. Tehsil Mandal 2. Tehsil Bhilwara (Partly) - (I) ILRC Danthal (II) ILRC Mangrop (III) ILRC Suwana (IV) ILRC Bhilwara excluding Municipal Council, Bhilwara |
| 179-Sahara | 1. Tehsil Sahara 2. Tehsil Raipur 3. Tehsil Bhilwara (Partly) - (I) ILRC Karoi Kalan (II) ILRC Pur excluding area of Municipal Council, Bhilwara (III) ILRC Hameergarh |
| 180-Bhilwara | 1. Tehsil Bhilwara (Partly) - (I) Municipal Council, Bhilwara |
| 181-Shahpura (SC) | 1. Tehsil Shahpura 2. Tehsil Banera |
| 182-Jahazpur | 1. Tehsil Jahazpur 2. Tehsil Kotri (Partly) - (I) ILRC Kotri (II) ILRC Sawaipur (III) ILRC Paroli |
| 183-Mandalgarh | 1. Tehsil Mandalgarh 2. Tehsil Bijoliya 3. Tehsil Kotri (Partly) - (I) ILRC Nandrai (ii) ILRC Badliyas |
| 29-DISTRICT BUNDI | |
| 184-Hindoli | 1. Tehsil Hindoli 2. Tehsil Nainwa (Partly) - (I) ILRC Nainwa including Municipal Board Nainwa (II) ILRC Jajawar (III) ILRC Bansi (IV) ILRC Dei |

| | |
|-----------------------------|---|
| 185-Keshoraipatan (SC) | 1. Tehsil Keshoraipatan 2. Tehsil Indergarh 3. Tehsil Nainwa (Partly) - (I) ILRC Jetpur (II) ILRC Karwar (III) ILRC Bamangaon |
| 186 - Bundi | 1. Tehsil Bundi |
| 30-DISTRICT KOTA | |
| 187-Pipalda | 1. Tehsil Pipalda 2. Tehsil Digod (Partly) - (I) ILRC Barod (II) ILRC Sultanpur (III) ILRC Jhargaon |
| 188 -Sangod | 1. Tehsil Sangod 2. Tehsil Digod (Partly) - (I) ILRC Digod (II) ILRC Rel (III) ILRC Seemlyya |
| 189-Kota North | 1. Tehsil Ladpura (Partly) - (I) Kota Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 1, 2, 12 to 32 and 49 to 52 |
| 190-Kota South | 1. Tehsil Ladpura (Partly) (I) Kota Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 3 to 6, 33 to 42, 53 to 58 and 60 |
| 191-Ladpura | 1. Tehsil Ladpura (Partly) - (I) Kota Municipal Corporation (Partly) - Ward No. 7 to 11, 43 to 48 and 59 (II) ILRC Kaithoon including Municipal Board Kaithoon (III) ILRC Tather (IV) ILRC Mandana (Partly) - (i) PC Kalyakheri (ii) PC Mandana (iii) PC Mandlaya (iv) PC Alniya (v) PC Ranpur (vi) PC Kasar (V) ILRC Ladpura (Partly) - (i) PC Kishanpura Takiya (ii) PC Rangpur (iii) PC Giridharpura |
| 192-Ramganj Mandi (SC) | 1. Tehsil Ramganj Mandi 2. Tehsil Ladpura (Partly) - (I) ILRC Mandana (Partly) - (i) PC Borabans (ii) PC Dharampura (iii) PC Bhanwariya (iv) PC Dolya (v) PC Dobara |
| 31-DISTRICT BARAN | |
| 193-Anta | 1. Tehsil Anta 2. Tehsil Mangrol 3. Tehsil Baran (Partly) - (I) ILRC Koyaia (II) ILRC Bamala |
| 194-Kishanganj (ST) | 1. Tehsil Kishanganj 2. Tehsil Shahbad |
| 195-Baran-Atru (SC) | 1. Tehsil Atru 2. Tehsil Baran (Partly) - (I) ILRC Baran including Municipal Board Baran (II) ILRC Fatehpur |
| 196-Chhabra | 1. Tehsil Chhabra 2. Tehsil Chhipabarod |
| 32-DISTRICT JHALAWAR | |
| 197-Dag (SC) | 1. Tehsil Pachpahar 2. Tehsil Gangdhar |
| 198-Jhalrapatan | 1. Tehsil Pirawa 2. Tehsil Jhalrapatan (Partly) - (I) ILRC Jhalrapatan including Municipal Board Jhalrapatan (II) ILRC Samrai (III) ILRC Jhalawar (Partly) - (i) Municipal Board Jhalawar (ii) PC Durgpura (III) PC Gindor (iv) PC Kalmadi Kalan (v) PC Khanpuriya (vi) PC Salotiya |
| 199-Khanpur | 1. Tehsil Khanpur 2. Tehsil Jhalrapatan (Partly) - (I) ILRC Mandawar (II) ILRC Ratlal (III) ILRC Salwad (IV) ILRC Bakani (V) ILRC Reechwa (VI) ILRC Jhalawar (Partly) - (i) PC Gagrion (ii) PC Govindpura |
| 200-Manohar Thana | 1. Tehsil Manohar Thana 2. Tehsil Akiera 3. Tehsil Jhalrapatan (Partly) - (I) ILRC Asnawar |

TABLE - B
PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES AND THEIR EXTENT

| S. No. and Name of Parliamentary Constituency | EXTENT IN TERMS OF ASSEMBLY CONSTITUENCY |
|--|---|
| 1-Ganganagar (SC) | 1-Sadulshahar, 2-Ganganagar, 3-Karanpur, 4-Suratgarh, 5-Raisinghnagar (SC), 7-Sangaria, 8-Hanumangarh and 9-Pilibanga (SC) |
| 2-Bikaner (SC) | 6-Anupgarh (SC), 12-Khajuwala (SC), 13-Bikaner West, 14-Bikaner East, 15-Kolayat, 16-Lunkaransar, 17-Dungargarh and 18-Nokha |
| 3-Churu | 10-Nohar, 11-Bhadra, 19-Sadulpur, 20-Taranagar, 21-Sardarshahar, 22-Churu, 23-Ratangarh and 24-Sujargarh (SC) |
| 4-Jhunjhunu | 25-Pilani (SC), 26-Surajgarh, 27-Jhunjhunu, 28-Mandawa, 29-Nawalgarh, 30-Udaipurwati, 31-Khetri and 32-Fatehpur |
| 5-Sikar | 33-Lachhmangarh, 34-Dhod (SC), 35-Sikar, 36-Danta Ramgarh, 37-Khandela, 38-Neem Ka Thana, 39-Srimadhopur and 43-Chomu |
| 6-Jaipur Rural | 40-Kotputli, 41-Viratnagar, 42-Shahpura, 44-Phulera, 46-Jhotwara, 47-Amber, 48-Jamwa Ramgarh (ST) and 63-Bansur |
| 7-Jaipur | 49-Hawa Mahal, 50-Vidhyadhar Nagar, 51-Civil Lines, 52-Kishan Pole, 53-Adarsh Nagar, 54-Malviya Nagar, 55-Sanganer and 56-Bagru (SC) |
| 8-Aiwar | 59-Tijara, 60-Kishangarh Bas, 61-Mundawar, 62-Behror, 65-Aiwar Rural (SC), 66-Aiwar Urban, 67-Ramgarh and 68-Rajgarh - Laxmangarh (ST) |
| 9-Bharatpur (SC) | 69 - Kathumar (SC), 70-Kaman, 71-Nagar, 72- Deeg - Kumher, 73-Bharatpur, 74-Nadbai, 75-Weir (SC) and 76-Bayana (SC) |
| 10- Karauli - Dholpur (SC) | 77-Baseri (SC), 78-Bari, 79-Dholpur, 80-Rajakhera, 81-Todabhim (ST), 82-Hindaun (SC), 83-Karauli and 84-Sapotra (ST) |
| 11-Dausa (ST) | 57-Bassi (ST), 58-Chaksu (SC), 64-Thanagazi, 85-Bandikui, 86-Mahuwa, 87-Sikrai (SC), 88-Dausa and 89-Lalsot (ST) |
| 12-Tonk - Sawai Madhopur | 90-Gangapur, 91-Bamanwas (ST), 92-Sawai Madhopur, 93-Khandar (SC), 94-Malpura, 95-Niwal (SC), 96-Tonk and 97-Deoli - Uniara |
| 13-Ajmer | 45-Dudu (SC), 98-Kishangarh, 99-Pushkar, 100-Ajmer North, 101-Ajmer South (SC), 102-Nasirabad, 104-Masuda and 105-Kekri |
| 14-Nagaur | 106-Ladnun, 107-Deedwana, 108-Jayal (SC), 109-Nagaur, 110-Khinvsar, 113-Makrana, 114-Parbatsar and 115-Nawan |
| 15-Pali | 117-Sojat (SC), 118-Pali, 119-Marwar Junction, 120-Bali, 121-Sumerpur, 125-Osian, 126-Bhopalgarh (SC) and 131-Bilara (SC) |
| 16-Jodhpur | 122-Phalodi, 123-Lohawat, 124-Shergarh, 127-Sardarpura, 128-Jodhpur, 129-Soorsagar, 130-Luni and 133-Pokaran |
| 17-Barmer | 132-Jaisalmer, 134-Sheo, 135-Barmer, 136-Baytoo, 137-Pachpadra, 138-Siwana, 139-Gudha Malani and 140-Chohtan (SC) |
| 18-Jalore | 141-Ahore, 142-Jalore (SC), 143-Bhinmal, 144-Sanchore, 145-Raniwara, 146-Sirohi, 147-Pindwara-Abu (ST) and 148-Reodar (SC) |
| 19-Udaipur (ST) | 149-Gogunda (ST), 150-Jhadol (ST), 151-Kherwara (ST), 152-Udaipur Rural (ST), 153-Udaipur, 156-Salumber (ST), 157-Dharlawad (ST) and 159-Aspur (ST) |
| 20-Banswara (ST) | 158-Dungarpur (ST), 160-Sagwara (ST), 161-Chorasi (ST), 162-Ghatol (ST), 163-Garhi (ST), 164-Banswara (ST), 165-Bagidora (ST) and 166-Kushalgarh (ST) |

| | |
|-------------------|--|
| 21-Chittorgarh | 154-Mavli, 155-Vallabhnagar, 167-Kapasan (SC), 168-Begun, 169-Chittorgarh, 170-Nimbahera, 171-Bari Sadri and 172-Pratapgarh (ST) |
| 22- Rajsamand | 103-Beawar, 111-Merta (SC), 112-Degana, 116-Jaitaran, 173-Bhim, 174-Kumbhalgarh, 175-Rajsamand and 176-Nathdwara |
| 23- Bhilwara | 177-Asind, 178-Mandal, 179-Sahara, 180-Bhilwara, 181-Shanpura (SC), 182-Jahazpur, 183-Mandalgarh and 184-Hindoli |
| 24-Kota | 185-Keshoraipatan (SC), 186-Bundi, 187-Pipalda, 188-Sangod, 189-Kota North, 190-Kota South, 191-Ladpura and 192-Ramganj Mandi (SC) |
| 25-Jhalawar-Baran | 193-Anta, 194-Kishanganj (ST), 195-Baran-Atru (SC), 196-Chhabra, 197-Dag (SC), 198-Jhalrapatan, 199-Khanpur and 200-Manohar Thana |

NOTE : Any reference in Table-A to a District, Tehsil, ILRC, Patwar Circle, Municipality and Ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that District, Tehsil, ILRC, Patwar Circle, Municipality and Ward or other territorial division as on the 15th day of February, 2004.

Sd/-
KULDIP SINGH, CHAIRMAN

Sd/-
N. GOPALASWAMI, MEMBER

Sd/-
INDERJIT KHANNA, MEMBER

[NO. 282/RJ/2005]

By Order,
SHANGARA RAM, Secy.